



**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

**(Formerly Known as Evergreen Textiles Limited)**

**CIN: L46692MH1985PLC037652**

**Regd. Off.:** Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building Plot No 209, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai-400021

**Tel No.:** + 91- 88828 64121; **Email:** info@evergreentextiles.in | **Website:** https://www.markobenzventures.com

Date: 19<sup>th</sup> April, 2024

To,  
**BSE Limited**  
Listing Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400 001

**Scrip Code:** 514060

**Scrip Id:** MARKOBENZ

**Sub.:** Submission of newspaper clippings for Extension of Closer date i.e 30<sup>th</sup> April, 2024 for Right Issue of Equity Shares of Markobenz Ventures Limited.

**Ref.:** Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Enclosed herewith please find the newspaper clippings for Extension of Closer date i.e 30<sup>th</sup> April, 2024 for Right Issue of Equity Shares of Markobenz Ventures Limited, published in the **Financial Express, Jansatta** and **Mumbai Lakshadeep** on 17<sup>th</sup> April, 2024 in accordance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully

**For Markobenz Ventures Limited**  
**Formerly known as Evergreen Textiles Limited**

Chirag  
Kanaiylal  
Shah

Digitally signed by  
Chirag Kanaiylal  
Shah  
Date: 2024.04.19  
14:50:25 +05'30'

**CHIRAG KANAIYALAL SHAH**  
**MANAGING DIRECTOR**  
**DIN: 09654969**

VSF PROJECTS LIMITED (CIN: L05005AP1992PLC014326) Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapur Village, Chillaikur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412, Website: www.vsfproject.com

Canara Bank DEMAND NOTICE Branch: Badshahpur Opp. SBI, Main Gurgaon Sohna Road, VPO badshahpur, Gurgaon, Haryana 122001

Bank of Baroda Notices to Lockers Holders- Bank of Baroda Defaulters in Payment of Rent of Lockers

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MAHAVIR INDUSTRIES LIMITED

SBI STATE BANK OF INDIA RACPC FARIDABAD, NEELAM CHOWK, FIRST FLOOR, NIT, FARIDABAD, HARYANA-121001

NOTICE FOR E-AUCTION SALE ON 21.05.2024 FOR MOVABLE PROPERTY Sale Notice for E-Auction of Movable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

MARKOBENZ VENTURES LIMITED OUR PROMOTERS : CHIRAG KANIYAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED

Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-Bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank Account and up-dation of such information in the e-auction website.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED OLD DATE NEW DATE ISSUE CLOSES ON Monday, April 22, 2024 Tuesday, 30 April 2024

MARKOBENZ VENTURES LIMITED Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

"IMPORTANT" Whose care is taken prior to acceptance or advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents.

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (SARB-II) KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521) 3rd & 4th Floor, State Bank House, 18/4 Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005

PRAJ INDUSTRIES LIMITED CIN :L27101PN1985PLC038031 Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi , Pune - 411 057.

APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES NOTICE FOR E-AUCTION DATED 09.05.2024

NOTICE OF Postal Ballot & Information Regarding E-voting Dear Members, Notice is hereby given that Praj Industries Limited (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013



**SMFG India Home Finance Company Ltd.**  
(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

Corporate Off. : 503 & 504, 5<sup>th</sup> Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Regd. Off. : Megh Towers, 3<sup>rd</sup> Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai - 600 095

**POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(i)]**

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) a Housing Finance Company duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI) (hereinafter referred to as "SMHFC") under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has **Taken Physical and Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Sl. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN	Description of Secured Assets (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	LAN:- 607407510553421 & 607439510964169 1. Guggilla Dharmendhar, S/W/O. Vishwanatham Guggilla 2. Guggilla Sandhya, 3. Ms. Tejasri Jewellery and Works	RCC House bearing municipal council H.No. 2-2-80 total area 154.63 Sq. Yds. or 129.88 Sq. mts and RCC roof of plinth area 736 Sq. fts. as bounded by East: Road, West: Open place of Siddamsetti Mohan, North: House of Donthulla Viswanatham H.No. 2-2-48 & House of Raparthi Raju H.No. 2-2-6, South: House of Siddamsetti Padma H.No. 2-2-79.	15.12.2022 Rs. 27,44,815/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Forty Seven Thousand Eight Hundred And Fifteen Only)	12.04.2024 (Physical Possession)
2.	LAN:- 606107510354157 1. Muddanagiri Sharadha, D/O. W/O. Sudhakar, 2. Dasari Muni Swami, S/O. Ranganna	All that the part of Plot No. 5 part, admeasuring 36 Sq.Yds or 30.09 Sq. Mts. in S. No. 9.10.76 & 77 situated at Boduppall Vill., & Municipality, Medipally Md., Medchal – Malkajgiri dt., (Previously known as Ghatkesar Md., Rangareddy Dt.), as bounded by East: 25' wide Road, West: Plot No. 5 part, North: Plot No. 5 part, South : 25' wide Road.	23.01.2024 Rs. 6,72,895/- (Rupees Six Lakhs Seventy Two Thousand Eight Hundred And Ninety Five Only)	12.04.2024 (Symbolic Possession)
3.	LAN:- 605807210595529 1. Pothabattula Rajalakshmi, S/W/O. Appala Raju Chelluri, 2. P. Kasi Viswaswar Rao, 3. Sri Venkata Sai Enterprises	All the site measuring 20 or 16.72 Sq. mts. being undivided and unspecified share out of 400 Sq. yds or 334.45 Sq.mts together with residential portion No. B Ground Floor with a plint area 600 Sq. fts bearing D. No. 16-259, Old Asst. No. 10001007671, New Asst. No. 1086414305 Electricity Service No. 1163272153001424 of Sharnvi Residency bearing society layout Plot No. 66 as bounded by East: Plot No. 65, South: Plot No. 67, West: 20 ft Road, North: 40 ft Road. Measurements: East Wing: 45 feet or 13.72 mts, South Wing: 80 ft. or 24.38 mts, West Wing: 45 ft or 13.72 mts, North Wing: 80 ft. or 24.38 mts. Boundaries of Residential Portion No. Bin Ground Floor: East: Staircase, South: Site belongs to others, West: 20 ft Road, North: Parking place.	15.12.2022 Rs. 8,26,139/- (Rupees Eight Lakhs Twenty Six Thousand One Hundred And Thirty Nine Only)	13.04.2024 (Physical Possession)

Place : Hyderabad, Karimnagar, Telangana  
Vishakhapatnam, Andhra Pradesh  
Date : 13.04.2024

Sd/-  
Authorized Officer, SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED  
(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

**FINANCIAL EXPRESS**

3

WEDNESDAY, APRIL 17, 2024

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,  
Hauz Khas, New Delhi-110016  
Warehousing for Everyone

Start Date: 16/04/2024 End Date: 15/05/2024

**Advertisement No CWC/I-GM (G)/Deputation/2024/02**

Central Warehousing Corporation, a Schedule-A, Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, providing scientific storage facilities for agricultural inputs, produce and other notified commodities besides providing logistics infrastructure like CFSs/JCDs, Land Custom Stations, Air Cargo Complexes etc. for import-export cargo, invites application from eligible candidates for the following post:

Post Code	Name of the Post	No. of Vacancies	Mode of Appointment
01	General Manager (General)	01	Deputation

Please visit CWC's Website ([www.cwv.acor.in/cin](http://www.cwv.acor.in/cin)) for detailed information on eligibility criteria including qualification and experience, selection process, terms and conditions and the mode of application.

**ADDENDUM CORRIGENDUM**

THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No. 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 8882864121 • Email: [info@evergreenventures.in](mailto:info@evergreenventures.in)  
• Website: [www.markobenzventures.com](http://www.markobenzventures.com) • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIYAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 / PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSURES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the Issue closing date; resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	<a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a>
Registrar to the Issue	<a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a>
BSE Limited	<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No. 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail: <a href="mailto:info@evergreenventures.in">info@evergreenventures.in</a>   Website: <a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a> Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011, Telephone: +91 22 2301 0771 Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a>   Website: <a href="https://www.purvashare.com/">https://www.purvashare.com/</a> SEBI Registration: INR00001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBS for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCBSs where the plain paper application was submitted by the ASBA investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaiyal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

**PC Jeweller Limited**  
Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phond: 011-49714971, Fax: 011-49714972  
E-mail: [info@pcjeweller.com](mailto:info@pcjeweller.com), Website: [www.pcjeweller.com](http://www.pcjeweller.com)  
CIN: L36911DL2005PLC134929

**INFORMATION REGARDING THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Friday, May 10, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the earlier Circulars issued in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business specified in the EGM Notice.

Pursuant to MCA Circulars, EGM Notice will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with Depository Participants ("DP") / Company / Registrar & Transfer Agent ("RTA") - KFIn Technologies Limited ("KFIntech"). EGM Notice will also be available on the Company's website <https://www.pcjeweller.com> websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of KFIntech at <https://evoting.kfintech.com>. Physical copy of EGM Notice will be sent to those Members who request for the same.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in EGM Notice either during remote e-voting period or at the EGM. If your e-mail address is registered with the DP / Company / RTA, the login details for e-voting will be sent on your registered e-mail address. Please note that the same login details are required for participating in the EGM through VC / OAVM and vote on the resolution at the EGM. Members holding shares in physical form or Members whose e-mail address is not registered, may refer to the procedure outlined in EGM Notice, to cast their vote during remote e-voting period or at the EGM. Detailed Instructions for attending the EGM, remote e-voting and e-voting at the EGM are provided in the EGM Notice.

Members, who have not yet registered their e-mail address and updated bank account details, are requested to do the same by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail address and update bank account details with their respective DP; and
- Members holding shares in physical form can register their e-mail address and update bank account details in the prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA - KFIntech. Members may download the Form from the Company's website and are requested to forward the duly filled in Form along with necessary supporting documents to KFIntech.

For PC Jeweller Limited  
Sd/-  
(VJAY PANWAR)  
Company Secretary

Place: Delhi  
Date: April 16, 2024

**Indianexpress.com**

**I look at every side before taking a side.**

**Inform your opinion with insightful perspectives.**

**The Indian Express.**  
For the Indian Intelligent.

**The Indian EXPRESS**  
JOURNALISM OF COURAGE

**PRAJ INDUSTRIES LIMITED**  
CIN : L27101PN1985PLC038031  
Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2,  
Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi , Pune - 411 057.  
Email: [investorsfeedback@praj.net](mailto:investorsfeedback@praj.net) / Website : [www.praj.net](http://www.praj.net)  
Ph. No. +91 020 71802000

**NOTICE of Postal Ballot & Information Regarding E-voting**

Dear Members,

**Notice** is hereby given that **Praj Industries Limited** (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31<sup>st</sup> March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remote e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. Further, Board has appointed Mr. Vikas Khare (Membership No.: 3541, COP-2107), failing him, Mr. Sunil Nanal (Membership No.: 5977, COP: 2809), Partners, KANJ & CO. LLP, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process through electronic means in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated **Wednesday, 10<sup>th</sup> April, 2024** ("Notice"), has been sent by the Company on **Tuesday, the 16<sup>th</sup> April, 2024**, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL and Central Depository Services (India) Limited (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/Registrar of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, 12<sup>th</sup> April, 2024** ("Cut-Off date").

The communication of assent/dissent of the members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purpose only. The Notice is also available on the website of the Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdli.com](http://www.evoting.nsdli.com).

The remote e-voting period commences from **09.00 a.m. (IST) on Friday, 19<sup>th</sup> April, 2024** and ends at **05.00 p.m. (IST) on Saturday, 18<sup>th</sup> May, 2024**. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is **128344**. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Registrar of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdli.com](http://www.evoting.nsdli.com) or call on toll free no.: 022-4886 7000 or contact Ms. Prajakta Pawle at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of two working days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), the stock exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdli.com](http://www.evoting.nsdli.com).

By Order of the Board of Directors  
For Praj Industries Limited  
Sd/-  
Anant Bavare  
Company Secretary & Compliance Officer  
(M. No. 21405)

Place : Pune  
Date : 17.04.2024

**"IMPORTANT**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever. Registered letters are not accepted in response to box number advertisement."

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**

CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89% OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [-] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-] AND HINDI EDITION OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [-] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

- Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Own Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		Total		600,000	111.00				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

- Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.
- The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.
- The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.
- The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges.

All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the website of the Book Running Lead Manager at [www.ifsil.co.in](http://www.ifsil.co.in). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act), the Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

financialexp.appr.in

HYDERABAD

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89% OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [-] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-] AND HINDI EDITION OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [-] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

- Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Own Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		Total		600,000	111.00				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

- Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.
- The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.
- The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face

**PROPELLED BY ITS FACTORIES**

# China's Q1 growth beats expectations

KEITH BRADSHER & ALEXANDRA STEVENSON  
April 16

**THE CHINESE ECONOMY** grew more than expected in the first three months of the year, new data shows, as China built more factories and exported huge amounts of goods to counter a severe real estate crisis and sluggish spending at home.

To stimulate growth, China, the world's second-largest economy, turned to a familiar tactic: investing heavily in its manufacturing sector, including a binge of new factories that have helped to propel sales around the world of solar panels, electric cars and other products.

But China's bet on exports has worried many foreign countries and companies. They fear that a flood of Chinese shipments to distant markets may undermine their manufacturing industries and lead to layoffs.

On Tuesday, China's National Bureau of Statistics said the economy grew 1.6% in the first quarter over the previous three months. When projected out for the entire year, the first-quarter data indicates that China's economy was growing at an annual rate of about 6.6%.

"The national economy made a good start," said Sheng Lajun, deputy director of the statistics bureau, while cautioning that "the foundation for stable and

sound economic growth is not solid yet."

Retail sales increased at a modest pace of 4.7% compared with the first three months of last year, and were particularly weak in March.

China needs robust consumer spending to bring down persistently high youth unemployment and to help companies and households cope with very high levels of debt.

For the year, China has set a growth target of about 5%, a goal that many economists had viewed as ambitious, although some have recently upgraded their forecasts.

— NYT

# EU aims to propose new sanctions on Iran

NATALIA DROZDIAK, ALBERTO NARDELLI & DONATO PAOLO MANCINI  
April 16

**THE EUROPEAN UNION** aims to propose fresh sanctions on Iran over its strike on Israel as early as next week when the bloc's top diplomats meet to discuss the limited options they have for constraining both nations' activity.

The EU is exploring how to expand sanctions it has already imposed on Iran for supplying Russia with unmanned aerial vehicles being used against Ukraine to include missiles and drones that Tehran has provided its proxies in West Asia, said diplomats in the know.

Several member states have also urged including components used in the weapons, said the diplomats, who spoke on condition of anonymity.

The bloc has been struggling to wield influence over the conflict in West Asia, while even the US has been unable to enforce its calls for restraint by Israel, a close ally.

While the topic of sanctions may come up when EU leaders meet this week, the measures will be discussed in more detail by the bloc's foreign ministers on Tuesday afternoon during a hastily convened video-conference.

— BLOOMBERG

# IMF lifts global growth forecast, but flags risks

ERIC MARTIN  
April 16

**THE INTERNATIONAL MONETARY** Fund (IMF) inched up its expectations for global economic growth this year, citing strength in the US and some emerging markets, while warning the outlook remains cautious amid persistent inflation and geopolitical risks.

Global economic activity will expand 3.2% this year, it said Tuesday in its World Economic Outlook, up 0.1 percentage point from its January estimate. The forecast for 2025 was unchanged at 3.2%.

Bloomberg Economics pegs this year's global expansion at 2.9% and next year at 3.1%.

Despite the upgrade, the IMF warned high borrowing costs and the withdrawal of fiscal support are weighing on short-term growth, while the medium-term outlook remains the weakest in decades due to low productivity and global trade tensions.

"Numerous challenges remain, and decisive actions are needed," IMF chief economist Pierre-Olivier Gourinchas wrote in a note online accompanying the outlook, flagging stubborn inflation and growing global inequality.

The outlook paints a picture of a world economy that avoided the worst stagnation dangers coming out of the pandemic, but with stunted potential in the coming years. The inflation fight for central banks is headed in the right direction, although it's too early to declare victory by easing monetary policy. And risks to growth abound, particularly from wars in Ukraine and the Middle East.

**PC Jeweller Limited**  
Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972  
E-mail: info@pcjeweller.com, Website: www.pcjeweller.com  
CIN: L36911DL2005PLC134929

**INFORMATION REGARDING THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Friday, May 10, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the earlier Circulars issued in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business specified in the EGM Notice.

Pursuant to MCA Circulars, EGM Notice will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with Depository Participants ("DP") / Company / Registrar & Transfer Agent ("RTA") - KFin Technologies Limited ("KFinTech"). EGM Notice will also be available on the Company's website <https://www.pcjeweller.com> and <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>. Physical copy of EGM Notice will be sent to those Members who request for the same.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in EGM Notice either during remote e-voting period or at the EGM. If your e-mail address is registered with the DP / Company / RTA, the login details for e-voting will be sent on your registered e-mail address. Please note that the same login details are required for participating in the EGM through VC / OAVM and vote on the resolution at the EGM. Members holding shares in physical form or Members whose e-mail address is not registered, may refer to the procedure outlined in EGM Notice, to cast their vote during remote e-voting period or at the EGM. Detailed "Instructions for attending the EGM, remote e-voting and e-voting at the EGM" are provided in the EGM Notice.

Members, who have not yet registered their e-mail address and updated bank account details, are requested to do the same by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail address and update bank account details with their respective DP; and
- Members holding shares in physical form can register their e-mail address and update bank account details in the prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA - KFinTech. Members may download the Form from the Company's website and are requested to forward the duly filled in Form along with necessary supporting documents to KFinTech.

For PC Jeweller Limited  
Sd/-  
(VIJAY PANWAR)  
Company Secretary

Place: Delhi  
Date: April 16, 2024

**PRAJ INDUSTRIES LIMITED**  
CIN :L27101PN1985PLC038031  
Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune - 411 057.  
Email: investorsfeedback@praj.net / Website : www.praj.net  
Ph. No. +91 020 71802000

**NOTICE of Postal Ballot & Information Regarding E-voting**

Dear Members,

Notice is hereby given that Praj Industries Limited (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31<sup>st</sup> March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remotely e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. Further, Board has appointed Mr. Vikas Khare (Membership No.: 3541, COP: 2107), failing him, Mr. Sunil Nanal (Membership No.: 5977, COP: 2809), Partners, KANJ & CO. LLP, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process through electronic means in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Wednesday, 10<sup>th</sup> April, 2024 ("Notice"), has been sent by the Company on Tuesday, the 16<sup>th</sup> April, 2024, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL and Central Depository Services (India) Limited (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, 12<sup>th</sup> April, 2024 ("Cut-Off date").

The communication of assent/dissent of the members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purpose only. The Notice is also available on the website of the Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Friday, 19<sup>th</sup> April, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Saturday, 18<sup>th</sup> May, 2024. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is 128344. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 022-4886 7000 or contact Ms. Prajakta Pawle at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of two working days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), the stock exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

By Order of the Board of Directors  
For Praj Industries Limited  
Sd/-  
Anant Bavare  
Company Secretary & Compliance Officer  
(M. No. 21405)

Place : Pune  
Date : 17.04.2024

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
4/1, Sir Muttiah Moolana Road, August Kranti Marg, Hous Khas, New Delhi-110016  
Warehousing for Everyone

Start Date: 16/04/2024 End Date: 15/05/2024

**Advertisement No CWC/-GM (G)/Deputation/2024/02**

Central Warehousing Corporation, a Schedule-A, Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, providing scientific storage facilities for agricultural inputs, produce and other notified commodities besides providing logistics infrastructure like CFSs/ICDs, Land Custom Stations, Air Cargo Complexes etc. for import-export cargo, invites application from eligible candidates for the following post:

Post Code	Name of the Post	No. of Vacancies	Mode of Appointment
01	General Manager (General)	01	Deputation

Please visit CWC's Website ([www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in)) for detailed information on eligibility criteria including qualification and experience, selection process, terms and conditions and the mode of application.

**VSF PROJECTS LIMITED**  
(CIN: L05005AP1992PLC014326)  
Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapatur Village, Chillakur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412.  
Website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com) Email: [vsfprojects01@gmail.com](mailto:vsfprojects01@gmail.com)  
Contact Number: + 040 - 23548694

**PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR KIND ATTENTION OF PHYSICAL SHAREHOLDERS**

This Public announcement is being given by VSF Projects Limited ("the Company") to inform the Physical Shareholders of the Company, that the Board of Directors of the Company has approved a Rights Issue of upto Rs. 4,95,00,000 Lakhs to all the existing shareholders of the Company and in this regard an application for obtaining in principle approval for the proposed Rights Issue has been made to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/PIR/2023/00094 dated June 21, 2023, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only and Investors will not have the option of getting the allotment of Equity Shares in physical form.

**PLEASE NOTE THAT SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT DEMATTED THEIR SHARES WILL BE DEPRIVED FROM EXERCISING THEIR RIGHTS ENTITLEMENT OR CREDIT OF SHARES IN DEMATERIALIZED FORM.**

Accordingly, we request all the shareholders holding shares in Physical form to get their shares dematerialised at the earliest but not later than 21 days from the date of this announcement to ensure credit of Rights Entitlement in the demat account.

For more details on Rights Issue refer to Chapter titled "Terms of Issue" on page 152 of the Draft Letter of Offer available on the following websites:

(a) Our Company - [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com); and  
(b) The Stock Exchange - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For any assistance in this regard, the Shareholders can contact our RTA, Aarhi Consultants Private Limited 1-2-285, Domalguda Hyderabad - 500029, email: [info@aarhiconsultants.com](mailto:info@aarhiconsultants.com), Tel: 040-27638111 or visit our website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com)

**For VSF Projects Limited**  
Sd/-  
B N Murthy  
Managing Director  
(DIN: 00073068)

Place: Hyderabad  
Date :16-04-2024

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**  
THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jambhal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 8882864121. • Email: [info@evergentextiles.in](mailto:info@evergentextiles.in).  
• Website: [www.markobenzventures.com](http://www.markobenzventures.com) • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIYALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSURES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close on Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the Issue closing date; resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	<a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a>
Registrar to the Issue	<a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a>
BSE Limited	<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jambhal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: <a href="mailto:info@evergentextiles.in">info@evergentextiles.in</a>   Website: <a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a> . Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Panel (E), Mumbai - 400011. Telephone: +91 22 2301 0771 Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a>   Website: <a href="https://www.purvashare.com/">https://www.purvashare.com/</a> SEBI Registration: INR00001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSBs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaiyalal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.**

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY  
CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA (THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER\*) AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•]. ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND HINDI EDITIONS OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

a) Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Ovn Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>		<b>600,000</b>	<b>111.00</b>				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of the Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

b) Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.

c) The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.

d) The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.

e) The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchanges.

**All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.**

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the website of the Book Running Lead Manager at [www.atsf.co.in](http://www.atsf.co.in). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Source: Company

PROPELLED BY ITS FACTORIES

China's economy grows more than expected

EDGING UP

China has invested heavily in its manufacturing sector, including a binge of new factories. The country seeks to counter a severe real estate crisis and sluggish spending at home.



China's bet on exports has worried many foreign countries and companies

KEITH BRADSHAW & ALEXANDRA STEVENSON April 16

THE CHINESE ECONOMY grew more than expected in the first three months of the year, new data shows, as China built more factories and exported huge amounts of goods to counter a severe real estate crisis and sluggish spending at home.

But China's bet on exports has worried many foreign countries and companies. They fear that a flood of Chinese shipments to distant markets may undermine their manufacturing industries and lead to layoffs.

On Tuesday, China's National Bureau of Statistics said the economy grew 1.6% in the first quarter over the previous three months. When projected out for the entire year, the first-quarter data indicates that China's economy was growing at an annual rate of about 6.6%.

"The national economy made a good start," said Sheng Laiyun, deputy director of the statistics bureau, while cautioning that "the foundation for stable and sound economic growth is not solid yet."

Retail sales increased at a modest

pace of 4.7% compared with the first three months of last year, and were particularly weak in March.

China needs robust consumer spending to bring down persistently high youth unemployment and to help companies and households cope with very high levels of debt.

For the year, China has set a growth target of about 5%, a goal that many economists had viewed as ambitious, although some have recently upgraded their forecasts. Last year, China's economy grew 5.2%. Output was 5.3% higher in the first three months of this year than during the same period last year, the statistics bureau announced on Tuesday, exceeding economists' forecasts.

A breakneck pace of factory investments, up 9.9% from a year ago, was central to China's growth. Strong exports early this year also helped.

The value of exports rose 7% in dollar terms in January and February from a year earlier, and 10% when measured in China's currency, the renminbi. However, the actual contribution from exports to the country's economy was considerably greater, as falling prices obscured the full extent of China's export gains.

Guo Tingting, a vice minister of commerce, said at a news conference last month that the physical volume of exports had climbed 20% in January and February over last year.

EU to hit Iran with new sanctions

THE EUROPEAN UNION aims to propose fresh sanctions on Iran over its strike on Israel as early as next week when the bloc's top diplomats meet to discuss the limited options they have for constraining both nations' activity.

The EU is exploring how to expand sanctions it has already imposed on Iran for supplying Russia with unmanned aerial vehicles being used against Ukraine to include missiles and drones that Tehran has provided its proxies in West Asia, said diplomats in the know.

— BLOOMBERG

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM. MARKOBENZ VENTURES LIMITED. NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED. ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH.

IMF lifts global growth forecast, but flags risks

IMF GROWTH PROJECTIONS

Table showing IMF growth projections for 2024 and 2025 GDP (%) for various countries like World, US, Euro area, Germany, France, Italy, UK, Japan, China, and India.

Source: International Monetary Fund, Bloomberg

ERIC MARTIN April 16

THE INTERNATIONAL MONETARY FUND inched up its expectations for global economic growth this year, citing strength in the US and some emerging markets, while warning the outlook remains cautious amid persistent inflation and geopolitical risks.

The forecast for 2025 was unchanged at 3.2%.

Despite the upgrade, the IMF warned high borrowing costs and the withdrawal of fiscal support are weighing on

short-term growth, while the medium-term outlook remains the weakest in decades due to low productivity and global trade tensions.

"Numerous challenges remain, and decisive actions are needed," IMF chief economist Pierre-Olivier Gourinchas wrote in a note online accompanying the outlook, flagging stubborn inflation and growing global inequality.

The inflation fight for central banks is headed in the right direction, although it's too early to declare victory by easing monetary policy.

And risks to growth abound, particularly from wars in Ukraine and the Middle East.

— BLOOMBERG

Bank of America profit drops on rising provisions

BANK OF America reported a drop in first-quarter profit as the lender set aside more money to cover souring loans, but still beat estimates on surging investment banking fees.

A resilient US economy, buoyant equities and a flurry of large deals have reignited

hopes of a nascent economic recovery, although industry executives have expressed guarded optimism.

Investment banking fees jumped 35% to \$1.6 billion in the reported quarter from a year earlier, partially offsetting a decline in interest payments.

— REUTERS

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION. Advertisement No. CWC/I-GM (G)/Deputation/2024/02. Central Warehousing Corporation, a Schedule-A, Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

SBI STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH II, KOLKATA. E-AUCTION NOTICE. 'Jeevandeeep Building', 10th Floor, 1, Middleton Street, Kolkata - 700071. Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Appendix - IV-A. [See Proviso to Rule 8(6)]. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES. E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive Possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India.

SEARCH FOR PROPERTY NO. 1. SEARCH FOR PROPERTY NO. 2. Property Location, Photos of Property. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India.

PRAJ INDUSTRIES LIMITED. CIN: L27101PN1985PLC038031. Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk-Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune - 411 057.

NOTICE OF Postal Ballot & Information Regarding E-voting

Dear Members, Notice is hereby given that Praj Industries Limited (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. Further, Board has appointed Mr. Vikas Khare (Membership No.: 3541, COP: 2107), failing him, Mr. Sunil Nanal (Membership No.: 5977, COP: 2809), Partners, KANJ & CO. LLP, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process through electronic means in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Wednesday, 10th April, 2024 ("Notice"), has been sent by the Company on Tuesday, the 16th April, 2024, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL and Central Depository Services (India) Limited (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, 12th April, 2024 ("Cut-Off date").

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Friday, 19th April, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Saturday, 18th May, 2024. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is 128344. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes.

By Order of the Board of Directors For Praj Industries Limited. Place : Pune Date : 17.04.2024. Anant Bavare, Company Secretary & Compliance Officer (M. No. 21405)

IDFC First Bank Limited. (Formerly known IDFC Bank Ltd) CIN : L65110TN2014PLC097792. Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031.

NOTICE OF LAST OPPORTUNITY TO COLLECT OF INVENTORY ITEMS. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the property bearing All the piece and parcel of the property consisting of Holding No. 194/2, Sreenagar, Mouza, Humaipur, PS- Barasat, Municipal Ward No-13, Madhyamgram Municipality, Kolkata, West Bengal - 700129 mortgaged/charged to the Secured Creditor.

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI. Relationship beyond banking.

Bardhaman Zonal Office. 446/N, Armstrong Avenue, Bidhan Nagar, Sector-2A, Durgapur, District - Bardwan, PIN- 713212, Phone No. 0342-2665703.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES) APPENDIX - IV, [See Rule-8(1)]

Whereas The undersigned being the authorized officer of the Bank of India (name of the Institution) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 04.01.2024 calling upon the borrower Shri Bimal Mukherjee & Shri Prasanta Mukherjee to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 34,11,368.49 (Rupees Thirty Four Lakh Eleven Thousand Three Hundred Sixty Eight and Paise Forty Nine) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Description of the Immovable Property. All that part and parcel of the property consisting of Mouza- Guskara, J.L. No. - 110, L.R. Plot No.- 3774, L.R. Khatian No.- 11471, P.O.- Guskara, P.S.- Ausgram, Dist.- Burdwan measuring area more or less than 6 decimal Bastu Land in the name of Mr. Bimal Mukherjee & Prasanta Mukherjee.

VSF PROJECTS LIMITED. (CIN: L05005AP1992PLC014326). Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapur Village, Chilkaur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412.

S. E. RAILWAY TENDER. e-Tender Notice No. ... T-PUB-GRG: 2024-382, Date : 15.04.2024. e-Tenders are invited by the Sr. Divisional Engineer, South Eastern Railway, Garden Reach, Kolkata-700043 for and on behalf of the President of India for the following work before 15.00 hrs. on the date mentioned against item and will be opened at 15.30 hrs.

This Public announcement is being given by VSF Projects Limited ("the Company") to inform the Physical shareholders of the Company, that the Board of Directors of the Company has approved a Rights Issue of upto Rs. 4,95,00 Lakhs to all the existing shareholders of the Company and in this regard an application for obtaining in principle approval for the proposed Rights Issue has been made to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Completion period of the work: 12 months. Date of opening : 15.05.2024. Any change in tender schedule, corrigendum, amendment, if any, shall be available on the E-tender portal only and same will not be published in the newspaper. Interested Tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details / description / specification of the tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for this work will be accepted. N.B.: Prospective bidders may regularly visit www.ireps.gov.in to participate in all other tenders.

सहारनपुर में रोड शो और बिजनौर व शामली में चुनावी सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा

## उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था दुरुस्त

सहारनपुर/बिजनौर, 16 अप्रैल (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है। देगा-कपर्धु पुरानी बात हो गई है। सूबे में अमन कायम है।

उन्होंने कहा कि बुधवार को रामनवमी का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्मदिन है। 500 साल बाद पहली बार श्री रामलला जन्मभूमि पर जन्मोत्सव मनाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में रोड शो और शामली व बिजनौर में चुनावी सभा में पहुंचकर भाजपा और रातोद प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की।

सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्रवाल धर्मशाला से भाजपा के रोड शो की अगुवाई की। यहां से वे भगत सिंह चौक, बाजार मोग गंज, नेहरू मार्केट होते हुए चौक घंटाघर पर पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की अपील की। रोड शो में उत्सव जैसा माहौल था। लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े थे।

मुख्यमंत्री फूलों से सजे एक वाहन पर अपने हाथों से विजयी चिन्ह बनाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। योगी के दाईं ओर भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा मौजूद थे। भाजपा के दोनों मंत्री, विधायक एवं मेयर डा अजय सिंह भी



सहारनपुर में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य।

‘देश के लोगों ने टाना है, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है’

बरेली/सहारनपुर, 16 अप्रैल (जनसत्ता)। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरेली में कहा कि देश के लोगों ने मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए टान लिया है।

इसकी तैयारी आरंभ है। उधर, सहारनपुर में अंतरराष्ट्रीय वैश्व फेडरेशन के मुख्य सलाहकार व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल को समर्थन देने की घोषणा की। यहां एक बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

योगी के साथ वाहन पर सवार थे। पुरे रोड शो के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।

वहीं दूसरी ओर शामली में आयोजित सभा में उन्होंने केराना के भाजपा उम्मीदवार

प्रदीप चौधरी के पक्ष में लोगों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। यहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तबसे कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई है। अब हर तरफ खुशहाली दिख रही है।

उधर, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिजनौर के नगीना के लोकसभा प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में नहटौर में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। उन्होंने नवरात्र की अष्टमी के साथ ही रामनवमी की अग्रिम बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण देना पड़ा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस व सपा ने हमारी आस्था को संकटग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन समाज प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्पित था। मोदी के कारण उसे सफलता प्राप्त हुई। आपने सरकार बनाने में योगदान दिया इसलिए यह श्रेय आपको जाता है। उन्होंने कहा कि सही दिशा में किया गया एक वोट तस्वीर और तकदीर बदल देता है, गलत दिशा में गया वोट पहचान का संकट खड़ा कर देता है।

उन्होंने तीसरी बार मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से बिजनौर से रातोद प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार को सांसद बनाने का आह्वान किया।

## आज रामलला का अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें

अयोध्या, 16 अप्रैल (जनसत्ता)।

रामनवमी यानी बुधवार को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। इस विशेष कार्यक्रम के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खास व्यवस्था कर रखी है।

इस दिन रामलला भक्तों को 19 घंटे दर्शन देंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केवल राम जन्मोत्सव के दिन यानी 17 अप्रैल को ही दर्शन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। राम जन्मोत्सव के दिन सुबह 3.30 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग सकेंगे। रात 11 बजे तक श्रृंगार, राग-भोग व दर्शन साथ-साथ चलते रहेंगे।

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि रामनवमी पर भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य किरण 12.16 मिनट के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी, इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की गई है। वैज्ञानिक इस अलौकिक पलों को पूरी भव्यता से

प्रदर्शित करने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर का बचा हुआ कार्य भी दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए रामनवमी के दिन खास व्यवस्थाएं होगी।

रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की खास व्यवस्था

के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्रीराम नवमी महोत्सव के दौरान मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3.30 बजे से अभिषेक, श्रृंगार एवं दर्शन साथ-साथ चलते रहेंगे। श्रृंगार आरती प्रातः 5.00 बजे

होगी। श्री रामलला का दर्शन एवं सभी पूजा-विधि यथावत साथ-साथ चलती रहेगी। भगवान को भोग लगाने के लिए समय-समय पर अल्प-काल को पर्दा रहेगा। रात्रि 11.00 बजे तक दर्शन का क्रम पूर्ववत् चलता रहेगा। इसके बाद परिस्थिति अनुसार भोग एवं शयन आरती होगी। तीर्थ क्षेत्र की ओर से बताया गया कि रामनवमी पर शयन आरती के बाद मंदिर निकास मार्ग पर प्रसाद मिलेगा।

## आचार संहिता के उल्लंघन मामले में शिक्षक निलंबित

गोंडा, 16 अप्रैल (जनसत्ता)।

जिले में मंगलवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही के लिए मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि जिले के छपिया शिक्षा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बखरौली के कंपोजिट विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक अरुण कुमार वर्मा के खिलाफ सपा द्वारा घोषित उम्मीदवार के कार्यक्रमों में शामिल होने तथा उनके पक्ष में प्रचार करने की शिकायत भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा की गई थी। प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय धनश्यामपुर से संबद्ध कर दिया गया है।

## कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण पर हिंदू पक्ष की बहस शुरू

प्रयागराज, 16 अप्रैल (भाषा)।

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही इंदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की और सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तिथि 22 अप्रैल, 2024 तय की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को कहा कि यह वाद पोषणीय है और पूजा स्थल अधिनियम एवं वक्फ अधिनियम के संबंध में अर्जी पेश करने के साक्ष्यों से ही निर्धारित हो सकती है। जैन ने कहा कि महज यह कहने से कि वहां एक मस्जिद है, वक्फ अधिनियम लागू नहीं होगा। संपत्ति का धार्मिक चरित्र महज ढांचे को ध्वस्त कर बदला नहीं जा सकता, यह देखना जरूरी है कि क्या डीड वैध है या नहीं। ये सभी चीजें मुकदमे में देखी जानी चाहिए और मौजूदा वाद पोषणीय है।

## भाजपा ने चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की

लखनऊ, 16 अप्रैल (भाषा)।

भाजपा ने यूपी के चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा की। सूची के मुताबिक ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व सीट से ओपी श्रीवास्तव, गैसडी से शैलेंद्र सिंह शैलू तथा दुद्धी (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से श्रवण गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है।

लखनऊ पूर्व सीट से प्रत्याशी बनाए गए ओपी श्रीवास्तव स्थानीय भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं। इस उपचुनाव में दिवंगत विधायक आशुतोष टंडन के परिवार से किसी को मौका नहीं मिला है। ददरौल विधानसभा सीट से विधायक मानवेंद्र सिंह (जिनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है) के बेटे अरविंद सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। गैसडी से शैलेंद्र सिंह शैलू 2017 से 2022 तक भाजपा विधायक थे। वे 2022 में सपा के शिव प्रताप यादव से चुनाव हार गये थे। यादव के निधन के बाद उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर शैलू पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। दुद्धी (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए श्रवण गौड़ पार्टी के जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी और पुराने पार्टी कार्यकर्ता हैं।

## मथुरा में सरकारी सेवाएं बेहाल : बसपा

मथुरा, 16 अप्रैल (जनसत्ता)।

बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने कहा है कि जनपद में 65 फीसद प्राथमिक स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र मानव संसाधन की बेहद कमी से जूझ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहदहाल हैं। विकास की हालत यह है कि जिले में चार लाख परिवार हर महीने सरकारी राशन का इंतजार करते हैं।

युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हर क्षेत्र में निराशा का माहौल है। यह निराशा लगातार गहरा रही है और माहौल विगड़ रहा है। देश और प्रदेश की सत्ता में बेटी पार्टी ने हालात यह बना दिए हैं कि हर महीने करीब 100 करोड़ की शराब मथुरा जनपद में लोग पी जाते हैं। जिससे सरकार को करीब 65 करोड़ का राजस्व मिलता है। शराब की कमाई और जनता के शोषण से धन काम कर हाइवे बनवा रहे हैं।

## सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने मैनुपुरी से नामांकन दाखिल किया

मैनुपुरी, 16 अप्रैल (भाषा)।

सपा की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनुपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सपा ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैनुपुरी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव व शिवपाल यादव मौजूद थे।

नामांकन दाखिल करने के बाद सपा प्रमुख यादव ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि सपा इस बार मैनुपुरी का चुनाव रिकार्ड मर्तो से जीतने जा रही है। मैनुपुरी में तीसरे चरण के तहत सात मई को मतदान होगा। मैनुपुरी सीट से भाजपा के जयवीर सिंह और बसपा के शिवप्रसाद यादव मैदान में हैं। सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनुपुरी में दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कुछ नहीं है। जनता जब

दस साल दिल्ली के काम का और सात साल उग्र की सरकार के काम का आकलन करेगी, तो भाजपा के सारे चेहरे गायब हो जाएंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है।

यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो रहा है और अब तक 10 प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने दावा किया कि इन्होंने युवाओं से नौकरी छीनी है और यह आरक्षण नहीं देना चाहते क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो आरक्षण देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए जानबूझकर प्रश्नपत्र लीक कराए जाते हैं। यादव ने दावा किया कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आयी है, तबसे एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है और इस बात को किसान भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने के कारण 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं।

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**  
THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
Mobile No: +91 882864121. Email: info@evergreentextiles.in  
Website: www.markobenzventures.com Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**  
**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the issue closing date; resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	www.markobenzventures.com
Registrar to the Issue	www.purvashare.com
BSE Limited	www.bseindia.com

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail: info@evergreentextiles.in   Website: www.markobenzventures.com. Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011, Telephone: +91 22 2301 0771 Email: support@purvashare.com   Website: https://www.purvashare.com/ SEBI Registration: INRP000001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSBs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaialal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY  
CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

**\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.**

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [-] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND HINDI EDITION OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

a) Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Ovn Infracore Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>		<b>600,000</b>	<b>111.00</b>				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

b) Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.

c) The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.

d) The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.

e) The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges.

All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Book Running Lead Manager at www.ifs.com.co.in. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Signed Comm.

VSF PROJECTS LIMITED (CIN: L05005AP1992PLC014326) Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankupatur Village, ChillaKur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412. Website: www.vsfproject.com

Canara Bank DEMAND NOTICE Branch: Badshahpur Opp. SBI, Main Gurgaon Sohna Road, VPO badshahpur, Gurgaon, Haryana 122001

Bank of Baroda Notices to Lockers Holders - Bank of Baroda Defaulters in Payment of Rent of Lockers

SBI STATE BANK OF INDIA RACPC FARIDABAD, NEELAM CHOWK, FIRST FLOOR, NIT, FARIDABAD, HARYANA-121001

NOTICE FOR E-AUCTION SALE ON 21.05.2024 FOR MOVABLE PROPERTY Sale Notice for E-Auction of Movable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

MARKOBENZ VENTURES LIMITED OFFICE No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MAHAVIR INDUSTRIES LIMITED

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (SARB-II) KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521) 3rd & 4th Floor, State Bank House, 18/4 Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 Tel.011-28752163 Fax. 28755674

MARKOBENZ VENTURES LIMITED OFFICE No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

"IMPORTANT" Whose care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents.

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES NOTICE FOR E-AUCTION DATED 09.05.2024

PRAJ INDUSTRIES LIMITED CIN :L27101PN1985PLC038031 Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi , Pune - 411 057.

SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

NOTICE OF Postal Ballot & Information Regarding E-voting Dear Members, Notice is hereby given that Praj Industries Limited(the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31st March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remote e-voting").





**चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड**  
कार्यालय: चोला रोड, सी 54 एच 55, सुरभ वी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032. शाखा पता: एनसीओ नंबर 350-351-352, तुथिय तल, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022। शाखा पता: एनसीओ 97, द्वितीय तल, प्रेम नगर, विकास विहार, अम्बाला सिटी, अम्बाला-134003

**कब्जा सूचना- (नियम 8(1) के तहत)**

जबकि, अधोस्ताखरी ने मैसर्स चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(ए) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थी, जिसमें कर्जदारों, निम्नके नाम कालम (डी) में निर्दिष्ट किए गए हैं, से कालम (ई) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम एवं पता तथा कालम खता संख्या (सी)	मांग सूचना की तिथि (डी)	बकाया राशि (ई)	कबजे में ली गई सम्पत्ति का विवरण (एफ)	कब्जा की तिथि (एफ)
1.	क्र. सं. खता सं. X0HEAML00002193645 कर्जदार एवं सह-कर्जदार :- श्री श्री जे पाल धीमान के सभी कर्जदारों (अलग अलग) 1. सुशीला धीमान (व्यक्ति) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 2. पवन लाल धीमान (पुरुष) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 3. प्रवीण लाल धीमान (पुरुष) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 4. विजय धीमान (पुरुष) मकान नंबर 189, प्रेम नगर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003.	19-01-2024	₹ 1,76,29,290/- ₹ 12,00,000/-	मकान कुल परिसर 761 वर्ग गज, थिरु कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, जिसमें 20 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 5197 दिनांकित 20-12-2006, 270 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 4629 दिनांकित 15-11-2006, 154 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 6989 दिनांकित 28-11-88 तथा 317 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 15288 दिनांकित 22-02-1991 के अनुसार पंजीकृत है।	15-04-2024

तिथि: 17-04-2024  
स्थान: चंडीगढ़/अम्बाला

**श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड**

(पूर्व की श्रीराम सिटी यूनिवर्सिटी फाइनेंस लिमिटेड)  
पंजीकृत कार्यालय: 14F, श्री टॉवर, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरुडी, चेन्नई 600 032  
शाखा कार्यालय: 2913-2914, प्रथम तल सेक्टर-22/सी, चंडीगढ़-160022  
वेबसाइट: www.shriramfinance.in

**मांग सूचना**

नोट: यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार 'श्रीराम सिटी यूनिवर्सिटी फाइनेंस लिमिटेड' को 'श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद 'श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर 'श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहाँ नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनिवर्सिटी फाइनेंस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विघ्नित चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आसित के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दूर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएं अनसुद्ध वापस कर दी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।

प्रतिभूत आसितियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार (रं)/सह-कर्जदार (रं)/जमानती का नाम एवं पता	बकाया राशि	प्रतिभूत आसितियों का सम्पत्ति पता
क्र. सं. RSCHDLP2208040010 1) श्री तारत मोहम्मद (कर्जदार) जिला - घग्गाँठ, तहसील - नालागढ़, जिला - सोलन - हिमाचल प्रदेश - 173211 2) श्रीमती भोली (सह-कर्जदार/गारंटर) ग्राम - घग्गाँठ, तहसील - नालागढ़, जिला - सोलन - हिमाचल प्रदेश - 173211	₹. 3125471/- (रुपये इकतीस लाख पचीस हजार चार सौ इक्कतर मात्र) क्र. सं. RSCHDLP2208040010 के परिप्रेक्ष्य में 30 सितम्बर, 2023 तक	अनुसूची-क संपत्ति की माप 00 बीघा-04, बिस्वा-00, बिस्वासी, खेवट/खोती संख्या 170/177, खरसा संख्या 608/315/2-1-1) के तहत, किता 01, भूमि की माप 01, बीघा, 01 बिस्वा शमिल, 4/21 की सीमा तक हिस्सा, यानी भूमि माप 00 बीघा, 04 बिस्वा, ग्राम घग्गाँठ, हड़बत नंबर 135, तहसील नालागढ़ और जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित। साइड के अनुसार सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य मालिक उत्तर: मालिक का प्लॉट, दक्षिण: सड़क
एनपीए दिनांक: 03-08.2023	₹. 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र)	
मांग सूचना दिनांक: 10.04.2024		

उपरोक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपरोक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोग हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात अस्मफल होने पर वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आसितियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आसितियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(1) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की सूचना प्राप्त होने के बिना इस सूचना में सम्बंधित किसी भी प्रतिभूत आसित को पट्टे, बिक्री या अन्याय विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकता।

स्थान: सोलन, हिमाचल प्रदेश दिनांक: 17.04.2024

ह./ अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**

THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 98282664121. • Email: info@evergreenventures.in.  
• Website: www.markobenzventures.com • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46929MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS: CHIRAG KANAIALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the issue closing date, resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	www.markobenzventures.com
Registrar to the Issue	www.purvashare.com
BSE Limited	www.bseindia.com

**COMPANY DETAILS**

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
E-mail: info@evergreenventures.in. | Website: www.markobenzventures.com.  
Corporate Identification Number: L46929MH1985PLC037652

**REGISTRAR TO THE ISSUE**

**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED**

Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011. Telephone: +91 22 3001 0771  
Email: support@purvashare.com | Website: https://www.purvashare.com/  
SEBI Registration: INR00001112 | Validity: Permanent  
Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBS for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCBS where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors For Markobenz Ventures Limited Sd/-

Chirag Kanaiyalal Shah Managing Director

Place: Mumbai Date: 16<sup>th</sup> April 2024

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.**



**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**

CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111,000 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND HINDI EDITION OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

a) Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Owin Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>	<b>600,000</b>	<b>111.00</b>					

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

b) Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.

c) The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer Paid-up Equity Share capital of our Company.

d) The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.

e) The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges.

All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED** is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Book Running Lead Manager at www.afxl.co.in. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

श्री कृष्ण नारायण सिंग  
संस्थापक निर्देशक  
011/23448934 ईमेल: PARLIA@bankofbaroda.com

**लॉकर धारकों को नोटिस - लॉकर के किराए के भुगतान में बैंक ऑफ़ बड़ोदा के बकाएदार**

यह हमारे मूल्यवान संरक्षकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक की नीचे उल्लिखित शाखाओं में लॉकर किराए पर लिए हैं और समझौते का उल्लंघन किया है। आरबीआई/बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किरायेदारों को उनके दर्ज पते पर नोटिस भेजा गया। लॉकर धारकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने और उनके दर्ज पते पर संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए और उनके वर्तमान ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार कोई विकल्प न होने पर, नीचे दिए गए सभी व्यक्तियों को नीचे उल्लिखित शाखाओं से संपर्क करने और 02/05/2024 तक बैंक का बकाया चुकाने के लिए यह नोटिस दिया जा रहा है, ऐसा न करने पर बैंक उनके लॉकर को उनके लागत, जोखिम और जिम्मेदारों पर तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा और बैंक बकाया किराया, ब्रेक आपन की लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए अपने ग्राह्याधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	लॉकर धारक का नाम	शाखा का नाम	लॉकर संख्या	अतिदेय राशि	दिया गया अंतिम नोटिस	ब्रेक आपन तिथि
1.	सीमासिंह	संसद मार्ग	0586AX0661 (पुराना नं.- 291)	14,897/-	24/11/2023	03/05/2024
2.	अमित जे भल्ला	संसद मार्ग	0586AX0687 (पुराना नं.- 314)	14,732/-	24/11/2023	03/05/2024
3.	अमित जय भल्ला	संसद मार्ग	0586AX0698 (पुराना नं.- 324)	10,619/-	24/11/2023	03/05/2024
4.	भल्लादेवप्रताप इंदु	संसद मार्ग	0586FX0019(पुराना नं.- 698)	50,813/-	24/11/2023	03/05/2024
5.	निताभानुवाला	संसद मार्ग	0586AX1389(पुराना नं.- 836)	13,478/-	24/11/2023	03/05/2024
6.	सुधेश मोहन कोहली	संसद मार्ग	0586AX1340(पुराना नं.- 951)	11,070/-	24/11/2023	03/05/2024
7.	सुनिताकुमार	संसद मार्ग	0586AX1051(पुराना नं.- 867)	12,808/-	24/11/2023	03/05/2024

दिनांक 15.04.2024, स्थान: नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ोदा

**इ-निविदा (इ-अप्रोव्युमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण**

सं. 128-W/280/इ- निविदा सूचना/16/2024-25/W-3 दिनांक: 15.04.2024  
निम्नलिखित कार्य को लिये वरिष्ठ मंडल अभियंता/।।।।।, उत्तर देवदे, दिल्ली मंडल में इ-निविदा आमंत्रण।

1 कार्य सहायक मंडल अभियंता/ दिल्ली के तहत वरिष्ठ अनुगम अभियंता/ पी.बी. का नाम शह्नुवरसरी के अनुगम में टैक का वार्षिक संचालन और रखरखाव।	
2 कार्य की अनुमानित लागत (₹पर्यय)	Rs. 98,89,479.44/- (अठ्ठाठ्ठात्तार लाख नवसौ हजार चार सौ उनहत्तर रूपये और धवनसीस पैसे मात्र)
3 बयाना राशि (₹पर्यय)	Rs. 1,97,800/- (एक लाख सत्तानवे हजार आठ सौ रूपये)
4 निविदा प्रश्न का मूल्य (₹पर्यय)	₹. 0.00
5 निविदा बोली प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय	03.05.2024 को 15:00 तक।

**AAP SHARES KEJRIWAL'S MESSAGE**

# Delhi CM from jail: My name is... Kejriwal, I'm not a terrorist

EXPRESS NEWS SERVICE  
New Delhi, April 16

"MY NAME IS Arvind Kejriwal, and I am not a terrorist." This is the Delhi Chief Minister's message to the people from jail, said senior AAP leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh on Tuesday.

The CM's assertion borrows from Shah Rukh Khan-starrer 'My Name is Khan' in 2010 in which the actor famously says "My Name is Khan and I am not a terrorist". Arrested on March 21 by the Enforcement Directorate (ED) in connection with the money laundering case related to the now-scrapped Delhi excise policy, Kejriwal is currently lodged in Tihar.

A Delhi court has extended his judicial custody till April 23. Posting a video on X (formerly Twitter), Singh said: "The BJP and the Prime Minister are treating Kejriwal like a terrorist... You have... so much malice and hatred that you make him (Kejriwal) speak to his family, his wife through a glass wall... The Punjab CM who has Z+ category security was made to meet the three-time elected CM through a smudged glass wall."

On Monday, Punjab CM Bhagwant Mann, who met Kejriwal in prison, claimed that the chief minister is being treated like a "big terrorist" and



AAP MP Sanjay Singh addresses a press conference in New Delhi on Tuesday. PTI

## Kejriwal's wife is among star campaigners in Guj

AFTER STEPPING OUT of the shadows to act as a channel of communication for her husband, Delhi Chief Minister and AAP convenor Arvind Kejriwal, following his arrest on March 21, Sunita Kejriwal was given her first "political responsibility" on Tuesday—as a "star campaigner" for the party in Gujarat.

A former Indian Revenue Service (IRS) officer, Sunita Kejriwal's name was placed just a notch below that of her husband in the list of 40 "star campaigners" for the state. The AAP has fielded candidates in



two of the 26 Lok Sabha seats in Gujarat as part of its alliance with Congress, its INDIA bloc ally.

In addition to the Kejriwals, the "star campaigners" include Punjab chief minister Bhagwant Mann, the entire Delhi cabinet ministers including jailed leaders Manish Sisodia and Satyendar Jain, Rajya Sabha MPs Sanjay Singh and Raghav Chadha, AAP national general secretary (organisation) Sandeep Pathak, and about 20 senior party leaders from Gujarat.

—ENS

was made to speak to him on a phone through a glass wall.

Accusing the PM of "harassing" and "humiliating" Kejriwal in jail, Singh added, "By putting him under 24-hour CCTV surveillance... your (Modi's) mind is working 24 hours on how to demoralise Kejriwal, how to humiliate him and his family, his party leaders. But, I want to tell you that Kejriwal is made of sterner stuff... If you make any attempt to break him, Kejriwal ji will become stronger and fight against you."

Meanwhile, Delhi BJP President Virendra Sachdeva said AAP's leaders are making fools of Delhi residents and that the CM is not facing any torture.

"People of Delhi have lost sympathy for CM Kejriwal... however, he may try to pretend, people very well know that Delhi's Tihar Jail is under his government and he is neither facing any harassment nor any torture. Jail authorities, bound by the Delhi Prison manual and the direction of the court concerned, are allowing all facilities to the jailed CM..."

Referring to the CM's latest message from jail, Sachdeva added, "Yes he is not a terrorist but he should have said 'I am Arvind Kejriwal involved in liquor scam!'"

# India's reliance on oil imports hits fresh full-year high in FY24

SUKALP SHARMA  
NEW DELHI, APRIL 16

INDIA'S RELIANCE ON imported crude to meet its domestic demand hit a fresh all-time high for the full financial year 2023-24 (FY24) due to growing demand for fuel and other petroleum products amid flagging domestic oil production. As per latest data from the oil ministry's Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), India's oil import dependency for FY24 climbed to 87.7% from 87.4% in FY23.


Given India's rapidly rising energy demand, reliance on oil imports has been rising continuously over the past few years, except for FY21, when demand was suppressed due to the Covid pandemic. India's oil import dependency was 85.5% in FY22, 84.4% in FY21, 85% in FY20, and 83.8% in FY19.

Heavy reliance on imported crude oil makes the Indian economy vulnerable to global oil price volatility, apart from having a bearing on the country's trade deficit, foreign exchange reserves, rupee's exchange rate, and inflation.

The government wants to reduce India's extreme dependence on imported crude oil but sluggish domestic oil output in the face of incessantly growing demand for petro-

## RISING ENERGY DEMAND

Oil import dependency (in %)



leum products has been the biggest roadblock. In fact, in early 2015, the government had set a target to reduce reliance on oil imports to 67% by 2022 from 77% in 2013-14, but the dependency has only grown since. Cutting costly oil imports continues to be a key focus area for the government, and it even found a mention in the BJP's manifesto for the impending Lok Sabha polls.

Reducing oil imports is also one of the fundamental objectives of the government's push for electric mobility, biofuels, and other alternative fuels for transportation as well as industries. Over the past few years, the government has also intensified efforts to raise domestic crude

oil output by making exploration and production contracts more lucrative and opening vast acreages for oil and gas exploration. While there has been a pick-up in electric mobility adoption and blending of biofuels with conventional fuels, it is not enough to offset petroleum demand growth.

The computation of the level of import dependence is based on the domestic consumption of petroleum products and excludes petroleum product exports as those volumes do not represent India's demand. With a refining capacity of a little over 250 million tonnes per annum, India—the world's third-largest consumer of crude oil and also one of its top importers—is a net exporter of petroleum products.

## PM holds roadshow in Guwahati

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Tuesday held a roadshow on the busy Guwahati-Shillong Road, with massive crowds turning up to greet him. The prime minister arrived in Assam in the evening on a two-day visit. He will address an election rally

in Nalbari on Wednesday. The two-km-long roadshow of the prime minister began near Rajiv Bhawan, the state Congress headquarters, and concluded near the state secretariat in Dispur.

—PTI

# NewsClick case: Delhi Police submit sanction orders to prosecute founder under UAPA

NIRBHAY THAKUR  
New Delhi, April 16

THE SPECIAL CELL of Delhi Police Tuesday submitted sanction orders to a Delhi court to prosecute NewsClick founder-editor Prabir Purkayastha under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

Purkayastha and NewsClick HR head Amit Chakraborty were arrested in October last year. They were sent to judicial custody in November. Chakraborty became an approver in the case in January.

**The first charge sheet in the case has already been filed, but the court has not yet taken cognizance. The matter will be heard next on April 30**

The first chargesheet in the case has already been filed, but the court has not yet taken cognizance. The matter will be heard next on April 30.

When a case is lodged under the UAPA, the Centre or the State government has to provide sanction to prosecute an accused after reviewing the evidence provided by the investigating agency—in this case, it is the Delhi Police Special Cell.

An FIR was registered against NewsClick, Purkayastha, US businessman Neville Roy Singham and

Jason Pftcher of Worldwide Media Holdings under UAPA Sections 13 (unlawful activities); 16 (terrorist act); 17 (raising funds for terrorist acts); 18 (conspiracy); 22 (C) (offences by companies, trusts); along with IPC Sections 153A (promoting enmity between different groups) and 120B (criminal conspiracy). The chargesheet, however, has been filed only against NewsClick and Purkayastha.

Earlier, the Delhi Police had alleged that NewsClick received illegal funding from China, routed through the United States. The FIR also mentioned

Purkayastha's "friendship since 1991" with rights activist Gautam Navlaka who is under house arrest in the Elgar Parishad-Maoist link case.

Among allegations detailed by the Special Cell in its FIR against Purkayastha were attempts to show Kashmir and Arunachal Pradesh as "not parts of India", discrediting the Indian government's fight against Covid, funding the farmers' agitation, and "putting up a spirited defence of legal cases" against Chi-

nese telecom companies such as Xiaomi and Vivo.

Purkayastha and Chakraborty were arrested following day-long searches at over 50 locations linked to the news portal, its employees and contributors. After the searches, which were carried out across the National Capital Region and Mumbai, police said a total of 46 "suspects" had been questioned and their "digital devices" seized. Police also sealed the news portal's office in Delhi.

In its remand application, the Special Cell stated there were "secret inputs" that "foreign funds in crores have been infused illegally in India by Indian and foreign entities inimical to India in pursuance of conspiracy with the intention to disrupt sovereignty and territorial integrity of India, to cause disaffection against India and to threaten the unity, integrity, security of India".

The remand application also stated that an analysis of 4.27 lakh emails showed that the accused were "in direct touch with each other" and were "discussing how to create a new map of India without Kashmir and to show Arunachal Pradesh as disputed area" and to this end, they had received "more than Rs 115 crore" in the "guise of foreign funds".

# India's envoy criticises Cong; party demands dismissal

DIVYA A  
New Delhi, April 16

IN REMARKS TARGETED at the Congress, India's Ambassador to Ireland, Akhilesh Mishra, on Monday blamed "a single dynastic party" for "the deeply entrenched ecosystem of corruption" in the country, while praising Prime Minister Narendra Modi for his "impeccable personal character and integrity". His remarks prompted an angry reaction from the Congress, which called for his sacking.

Mishra made the remarks in a rejoinder to an editorial in The Irish Times last week, headlined "...Modi tightens his grip", which said that "India's democratic credentials have been severely tarnished" by a "widespread crackdown on free speech and Opposition parties, with hundreds of politically targeted corruption and tax cases filed against Opposition MPs and leaders".

"Most recent was the arrest of Arvind Kejriwal... over an alleged 'scam' involving alcohol sales... And Congress, India's largest Opposition party, has seen the tax authority freeze millions in its bank accounts, crippling its ability to campaign," the editorial said.



Akhilesh Mishra, Indian Ambassador to Ireland

"There is a huge sense of relief at the grassroots level to witness action being taken and recoveries made from the rich and powerful elites who operated with a sense of entitlement of impunity," he said.

# Amitabh Bachchan to receive Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar

MEGASTAR AMITABH BACHCHAN will be honoured with the Lata Deenanath Mangeshkar award, the Mangeshkar family announced on Tuesday.

The family and the trust instituted the award in the memory of Lata Mangeshkar, who died on February 6, 2022, following multiple organ failure.

Bachchan, 81, will receive the recognition on April 24, the memorial day of their father and theatre-music veteran Deenanath Mangeshkar. This award, known as the Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar, is given every year to an individual who has made a path-breaking contribution towards the nation, its people and society.

Music maestro A R Rahman will receive the Master Deenanath Mangeshkar Puraskar for contribution to Indian music, said a press release issued by the Mangeshkar family. —PTI

**केनरा बँक Canara Bank**  
KAKAD MARKET BRANCH : Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. : +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID : cb0223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)]**

To,  
• Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.  
• Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,  
SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.  
That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our Kakad Market Branch from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	160000346841	Housing Loan	₹ 25,40,000/-	₹ 24,06,932.86	9.45% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more Specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13(2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 24,06,932.86 (Rs. Twenty Four Lakhs Six Thousand Nine Hundred Thirty Two and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act.

Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (B) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**  
ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :- Residential Flat Bearing Flat No. 203 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in 'A' Wing, admeasuring 479.32 Sq. Ft. i. e. 44.53 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As "Royal Garden", situated at Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- **North** : By Bldg. No. 5 of Royal Garden; **South** : By Village Wadi; **East** : By Bungalow of Suniket Patil; **West** : By Ganesh Wadi

Date : 16.04.2024  
Place : Mumbai

Authorized Officer  
Canara Bank

**केनरा बँक Canara Bank**  
KAKAD MARKET BRANCH : Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. : +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID : cb0223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)]**

To,  
• Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.  
• Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,  
SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.  
That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our Kakad Market Branch from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	164001531406	Housing Loan	₹ 17,70,000/-	₹ 16,77,929.86	9.95% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more Specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13(2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 16,77,929.86 (Rs. Sixteen Lakhs Seventy Seven Thousand Nine Hundred Twenty Nine and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act.

Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (B) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**  
ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :- Residential Flat Bearing Flat No. 202 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in 'A' Wing, admeasuring 344.88 Sq. Ft. i. e. 32.04 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As "Royal Garden", situated at Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- **North** : By Bldg. No. 5 of Royal Garden; **South** : By Village Wadi; **East** : By Bungalow of Suniket Patil; **West** : By Ganesh Wadi

Date : 16.04.2024  
Place : Mumbai

Authorized Officer  
Canara Bank

**PUBLIC NOTICE**  
**GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LIMITED**  
(Regd. Office: Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030)

This is to inform the general public that Original Share Certificate(s) issued by GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, the details of which are as mentioned below, have been lost/misplaced and an application has been made by the holder(s) for issuance of duplicate Share Certificate(s) in respect thereof.

Name(s) of the Holder	Folio No.	Certificate No	Distinctive From & To	No. of Shares	
Subodh Ramesh Gadkari	0070477	172584	201911	201960	50
		405064	27791909	27791918	10
		685482	33098960	33099009	50
		685483	33099010	33099019	10
		1288587	171426489	171426608	120

Any person who has a claim in respect of the said shares or objection to the issuance of the duplicate Share Certificate shall lodge such claim or objection with the Company at its Registered Office within 15 (fifteen) days from the publication of this notice or else the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate(s) in favor of the holder(s) without any further delay.

Place : Mumbai  
Date : 17-04-2024

Sd/-  
Mr. Subodh Ramesh Gadkari

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**  
THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 9882864121 • Email: info@evergreentextiles.in.  
• Website: www.markobenzventures.com • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**  
**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the issue closing date, resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent state in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	www.markobenzventures.com
Registrar to the Issue	www.purvashare.com
BSE Limited	www.bseindia.com

**COMPANY DETAILS**  
MARKOBENZ VENTURES LIMITED  
Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer;  
E-mail: info@evergreentextiles.in. | Website: www.markobenzventures.com.  
Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**REGISTRAR TO THE ISSUE**  
PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED  
Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011. Telephone: +91 22 2301 0771  
Email: support@purvashare.com | Website: https://www.purvashare.com/ | SEBI Registration: INR00001112 | Validity: Permanent  
Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBSs for grievances relating to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCBSs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaialal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

● AAP SHARES KEJRIWAL'S MESSAGE

# Delhi CM from jail: My name is... Kejriwal, I'm not a terrorist

EXPRESS NEWS SERVICE  
New Delhi, April 16

"MY NAME IS Arvind Kejriwal, and I am not a terrorist." This is the Delhi Chief Minister's message to the people from jail, said senior AAP leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh on Tuesday.

The CM's assertion borrows from Shah Rukh Khan-starrer 'My Name is Khan' in 2010 in which the actor famously says "My Name is Khan and I am not a terrorist". Arrested on March 21 by the Enforcement Directorate (ED) in connection with the money laundering case related to the now-scrapped Delhi excise policy, Kejriwal is currently lodged in Tihar.

A Delhi court has extended his judicial custody till April 23. Posting a video on X (formerly Twitter), Singh said: "The BJP and the Prime Minister are treating Kejriwal like a terrorist... You have... so much malice and hatred that you make him (Kejriwal) speak to his family, his wife through a glass wall... The Punjab CM who has Z+ category security was made to meet the three-time elected CM through a smudged glass wall..."

On Monday, Punjab CM Bhagwant Mann, who met Kejriwal in prison, claimed that the chief minister is being treated like a "big terrorist" and



AAP MP Sanjay Singh addresses a press conference in New Delhi on Tuesday.

## Kejriwal's wife is among star campaigners in Guj

AFTER STEPPING OUT of the shadows to act as a channel of communication for her husband, Delhi Chief Minister and AAP convenor Arvind Kejriwal, following his arrest on March 21, Sunita Kejriwal was given her first "political responsibility" on Tuesday—as a "star campaigner" for the party in Gujarat.

A former Indian Revenue Service (IRS) officer, Sunita Kejriwal's name was placed just a notch below that of her husband in the list of 40 "star campaigners" for the state. The AAP has fielded candidates in

two of the 26 Lok Sabha seats in Gujarat as part of its alliance with Congress, its INDIA bloc ally.

In addition to the Kejriwals, the "star campaigners" include Punjab chief minister Bhagwant Mann, the entire Delhi cabinet ministers including jailed leaders Manish Sisodia and Satyendar Jain, Rajya Sabha MPs Sanjay Singh and Raghav Chadha, AAP

national general secretary (organisation) Sandeep Pathak, and about 20 senior party leaders from Gujarat.

—ENS



was made to speak to him on a phone through a glass wall.

Accusing the PM of "harassing" and "humiliating" Kejriwal in jail, Singh added, "By putting him under 24-hour CCTV surveillance... your (Modi's) mind is working 24 hours on how to demoralise Kejriwal, how to humiliate him and his family, his party leaders. But, I want to tell you that Kejriwal is made of sterner stuff... If you make any attempt to break him, Kejriwal ji will become stronger and fight against you."

Meanwhile, Delhi BJP President Virendra Sachdeva said AAP's leaders are making fools of Delhi residents and that the CM is not facing any torture.

"People of Delhi have lost sympathy for CM Kejriwal... however, he may try to pretend, people very well know that Delhi's Tihar Jail is under his government and he is neither facing any harassment nor any torture. Jail authorities, bound by the Delhi Prison manual and the direction of the court concerned, are allowing all facilities to the jailed CM..."

Referring to the CM's latest message from jail, Sachdeva added, "Yes he is not a terrorist but he should have said 'I am Arvind Kejriwal involved in liquor scam'"

# India's reliance on oil imports hits fresh full-year high in FY24

SUKALP SHARMA  
NEW DELHI, APRIL 16


INDIA'S RELIANCE ON imported crude to meet its domestic demand hit a fresh all-time-high for the full financial year 2023-24 (FY24) due to growing demand for fuel and other petroleum products amid flagging domestic oil production. As per latest data from the oil ministry's Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), India's oil import dependency for FY24 climbed to 87.7% from 87.4% in FY23.

Given India's rapidly rising energy demand, reliance on oil imports has been rising continuously over the past few years, except for FY21, when demand was suppressed due to the Covid pandemic. India's oil import dependency was 85.5% in FY22, 84.4% in FY21, 85% in FY20, and 83.8% in FY19.

Heavy reliance on imported crude oil makes the Indian economy vulnerable to global oil price volatility, apart from having a bearing on the country's trade deficit, foreign exchange reserves, rupee's exchange rate, and inflation.

The government wants to reduce India's extreme dependence on imported crude oil but sluggish domestic oil output in the face of incessantly growing demand for petro-

## RISING ENERGY DEMAND



leum products has been the biggest roadblock. In fact, in early 2015, the government had set a target to reduce reliance on oil imports to 67% by 2022 from 77% in 2013-14, but the dependency has only grown since. Cutting costly oil imports continues to be a key focus area for the government, and it even found a mention in the BJP's manifesto for the impending Lok Sabha polls.

Reducing oil imports is also one of the fundamental objectives of the government's push for electric mobility, biofuels, and other alternative fuels for transportation as well as industries. Over the past few years, the government has also intensified efforts to raise domestic crude

oil output by making exploration and production contracts more lucrative and opening vast acreages for oil and gas exploration. While there has been a pick-up in electric mobility adoption and blending of biofuels with conventional fuels, it is not enough to offset petroleum demand growth.

The computation of the level of import dependence is based on the domestic consumption of petroleum products and excludes petroleum product exports as those volumes do not represent India's demand. With a refining capacity of a little over 250 million tonnes per annum, India—the world's third-largest consumer of crude oil and also one of its top importers—is a net exporter of petroleum products.

## PM holds roadshow in Guwahati

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Tuesday held a roadshow on the busy Guwahati-Shillong Road, with massive crowds turning up to greet him. The prime minister arrived in Assam in the evening on a two-day visit. He will address an election rally

in Nalbari on Wednesday. The two-km-long roadshow of the prime minister began near Rajiv Bhawan, the state Congress headquarters, and concluded near the state secretariat in Dispur.

—PTI

# NewsClick case: Delhi Police submit sanction orders to prosecute founder under UAPA

NIRBHAY THAKUR  
New Delhi, April 16

THE SPECIAL CELL of Delhi Police Tuesday submitted sanction orders to a Delhi court to prosecute NewsClick founder-editor Prabir Purkayastha under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

Purkayastha and NewsClick HR head Amit Chakraborty were arrested in October last year. They were sent to judicial custody in November. Chakraborty became an approver in the case in January.

The first chargesheet in the case has already been filed, but the court has not yet taken cognizance. The matter will be heard next on April 30.

When a case is lodged under the UAPA, the Centre or the State government has to provide sanction to prosecute an accused after reviewing the evidence provided by the investigating agency—in this case, it is the Delhi Police Special Cell.

An FIR was registered against NewsClick, Purkayastha, US businessman Neville Roy Singham and

Jason Pletcher of Worldwide Media Holdings under UAPA Sections 13 (unlawful activities); 16 (terrorist act); 17 (raising funds for terrorist acts); 18 (conspiracy); 22 (C) (offences by companies, trusts); along with IPC Sections 153A (promoting enmity between different groups) and 120B (criminal conspiracy). The chargesheet, however, has been filed only against NewsClick and Purkayastha.

Earlier, the Delhi Police had alleged that NewsClick received illegal funding from China, routed through the United States. The FIR also mentioned

1991" with rights activist Gautam Navlakha who is under house arrest in the Elgar Parishad-Maoist link case.

Among allegations detailed by the Special Cell in its FIR against Purkayastha were attempts to show Kashmir and Arunachal Pradesh as "not parts of India", discrediting the Indian government's fight against Covid, funding the farmers' agitation, and "putting up a spirited defence of legal cases" against Chi-

nese telecom companies such as Xiamo and Vivo.

Purkayastha and Chakraborty were arrested following day-long searches at over 50 locations linked to the news portal, its employees and contributors. After the searches, which were carried out across the National Capital Region and Mumbai, police said a total of 46 "suspects" had been questioned and their "digital devices" seized. Police also sealed the news portal's office in Delhi.

In its remand application, the Special Cell stated there were "secret inputs" that "foreign funds in crores have been infused illegally in India by Indian and foreign entities inimical to India in pursuance of conspiracy with the intention to disrupt sovereignty and territorial integrity of India, to cause disaffection against India and to threaten the unity, integrity, security of India".

The remand application also stated that an analysis of 4.27 lakh emails showed that the accused were "in direct touch with each other" and were "discussing how to create a new map of India without Kashmir and to show Arunachal Pradesh as disputed area" and to this end, they had received "more than Rs 115 crore" in the "guise of foreign funds".

# India's envoy criticises Cong; party demands dismissal

DIVYA A  
New Delhi, April 16

IN REMARKS TARGETED at the Congress, India's Ambassador to Ireland, Akhilesh Mishra, on Monday blamed "a single dynastic party" for "a deeply entrenched ecosystem of corruption" in the country, while praising Prime Minister Narendra Modi for his "impeccable personal character and integrity". His remarks prompted an angry reaction from the Congress, which called for his sacking.

Mishra made the remarks in a rejoinder to an editorial in The Irish Times last week, headlined "...Modi tightens his grip", which said that "India's democratic credentials have been severely tarnished" by a "wide-spread crackdown on free speech and Opposition parties, with hundreds of politically targeted corruption and tax cases filed against Opposition MPs and leaders".

"Most recent was the arrest of Arvind Kejriwal... over an alleged 'scam' involving alcohol sales... And Congress, India's largest Opposition party, has seen the tax authority freeze millions in its bank accounts, crippling its ability to campaign," the editorial said.

In his rejoinder, with the headline "Modi enjoys unprecedented popularity", Mishra said: "Prime Minister Narendra Modi enjoys unprecedented



Akhilesh Mishra, Indian Ambassador to Ireland

popularity not only in India but globally because of his impeccable personal character and integrity and thought-leadership on innovative, inclusive governance and sustainable development."

"As he does not belong to any elite political family, his personal life inspires millions of ordinary people in India and other developing countries," Mishra said. "The fight against the deeply entrenched ecosystem of corruption (created by the 55-year rule, including first 30 years by a single dynastic party in India) is a major factor behind Mr Modi's ever growing popularity," he said.

"There is a huge sense of relief at the grassroots level to witness action being taken and recoveries made from the rich and powerful elites who operated with a sense of entitlement of impunity," he said.

# Amitabh Bachchan to receive Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar

MEGASTAR AMITABH BACHCHAN will be honoured with the Lata Deenanath Mangeshkar award, the Mangeshkar family announced on Tuesday.

The family and the trust instituted the award in the memory of Lata Mangeshkar, who died on February 6, 2022, following multiple organ failure.

Bachchan, 81, will receive the recognition on April 24, the memorial day of their father and theatre-music veteran Deenanath Mangeshkar.

This award, known as the Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar, is given every year to an individual who has made a path-breaking contribution towards the nation, its people and society.

Music maestro A R Rahman will receive the Master Deenanath Mangeshkar Puraskar for contribution to Indian music, said a press release issued by the Mangeshkar family. —PTI

**केनरा बँक Canara Bank**

KAKAD MARKET BRANCH: Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kairabdevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID: ckb223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE (SECTION 13(2))**

To,

- Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)
- Address: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.
- Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Co-Borrower)
- Address: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,

SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.

That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our **Kakad Market Branch** from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	160000346841	Housing Loan	₹ 25,40,000/-	₹ 24,06,932.86	9.45% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you have failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13 (2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 24,06,932.86 (Rs. Twenty Four Lakhs Six Thousand Nine Hundred Thirty Two and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**

**ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :-** Residential Flat Bearing Flat No. 203 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in 'A' Wing, **addressing** 479.32 Sq. Ft. i. e. 44.53 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As "Royal Garden", situated at Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- \*North: By Bldg. No. 5 of Royal Garden; \*South: By Village Wadi; \*East: By Bungalow of Suniket Patil; \*West: By Ganesh Wadi

Date: 16.04.2024  
Place: Mumbai

Authorized Officer  
**Canara Bank**

**केनरा बँक Canara Bank**

KAKAD MARKET BRANCH: Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kairabdevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID: ckb223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE (SECTION 13(2))**

To,

- Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)
- Address: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.
- Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Co-Borrower)
- Address: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, 'A' Wing, Royal Garden, Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,

SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.

That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our **Kakad Market Branch** from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	164001531406	Housing Loan	₹ 17,70,000/-	₹ 16,77,929.86	9.95% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you have failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13 (2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 16,77,929.86 (Rs. Sixteen Lakhs Seventy Seven Thousand Nine Hundred Twenty Nine and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**

**ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :-** Residential Flat Bearing Flat No. 202 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in 'A' Wing, **addressing** 344.88 Sq. Ft. i. e. 32.04 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As "Royal Garden", situated at Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village: Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- \*North: By Bldg. No. 5 of Royal Garden; \*South: By Village Wadi; \*East: By Bungalow of Suniket Patil; \*West: By Ganesh Wadi

Date: 16.04.2024  
Place: Mumbai

Authorized Officer  
**Canara Bank**

**PUBLIC NOTICE**

**GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LIMITED**  
(Regd. Office: Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030)

This is to inform the general public that Original Share Certificate(s) issued by GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, the details of which are as mentioned below, have been lost/misplaced and an application has been made by the holder(s) for issuance of duplicate Share Certificate(s) in respect thereof.

Name(s) of the Holder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive From & To	No. of Shares
Subodh Ramesh Gadkari	0070477	172584	201911 / 201960	50
		405064	27791909 / 27791918	10
		685482	33098960 / 33099009	50
		685483	33099010 / 33099019	10
		1288587	171426489 / 171426608	120

Any person who has a claim in respect of the said shares or objection to the issuance of the duplicate Share Certificate shall lodge such claim or objection with the Company at its Registered Office within 15 (fifteen) days from the publication of this notice or else the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate(s) in favor of the holder(s) without any further delay.

Place: Mumbai  
Date: 17-04-2024

Sd/-  
Mr. Subodh Ramesh Gadkari

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**

THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jannalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
\* Mobile No: +91 8828264121 • E-mail: info@evergreentextiles.in  
\* Website: www.markobenzventures.com • Contact Person: Panjaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
\* Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS: CHIRAG KANAIYAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 144.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSURE ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and scheduled to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the issue closing date; resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	www.markobenzventures.com
Registrar to the Issue	www.purvashare.com
BSE Limited	www.bseindia.com

**COMPANY DETAILS**  
**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jannalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
Contact Person: Panjaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: info@evergreentextiles.in | Website: www.markobenzventures.com.  
Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**REGISTRAR TO THE ISSUE**  
**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED**  
Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011. Telephone: +91 22 2301 0771  
Email: support@purvashare.com | Website: https://www.purvashare.com/ | SEBI Registration: INR000001112 | Validity: Permanent  
Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSEs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSEs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledged slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaiyali Shah  
Managing Director

Place: Mumbai  
Date: 16<sup>th</sup> April 2024



● AAP SHARES KEJRIWAL'S MESSAGE

# Delhi CM from jail: My name is... Kejriwal, I'm not a terrorist

EXPRESS NEWS SERVICE  
New Delhi, April 16

“MY NAME IS Arvind Kejriwal, and I am not a terrorist.” This is the Delhi Chief Minister’s message to the people from jail, said senior AAP leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh on Tuesday.

The CM’s assertion borrows from Shah Rukh Khan-starrer ‘My Name is Khan’ in 2010 in which the actor famously says “My Name is Khan and I am not a terrorist”. Arrested on March 21 by the Enforcement Directorate (ED) in connection with the money laundering case related to the now-scrapped Delhi excise policy, Kejriwal is currently lodged in Tihar.

A Delhi court has extended his judicial custody till April 23.

Posting a video on X (formerly Twitter), Singh said: “The BJP and the Prime Minister are treating Kejriwal like a terrorist... You have... so much malice and hatred that you make him (Kejriwal) speak to his family, his wife through a glass wall... The Punjab CM who has Z+ category security was made to meet the three-time elected CM through a smudged glass wall.”

On Monday, Punjab CM Bhagwant Mann, who met Kejriwal in prison, claimed that the chief minister is being treated like a “big terrorist” and



AAP MP Sanjay Singh addresses a press conference in New Delhi on Tuesday. PTI

## Kejriwal's wife is among star campaigners in Guj

AFTER STEPPING OUT of the shadows to act as a channel of communication for her husband, Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal, following his arrest on March 21, Sunita Kejriwal was given her first “political responsibility” on Tuesday—as a “star campaigner” for the party in Gujarat.

A former Indian Revenue Service (IRS) officer, Sunita Kejriwal’s name was placed just a notch below that of her husband in the list of 40 “star campaigners” for the state. The AAP has fielded candidates in



two of the 26 Lok Sabha seats in Gujarat as part of its alliance with Congress, its INDIA bloc ally.

In addition to the Kejriwals, the “star campaigners” include Punjab chief minister Bhagwant Mann, the entire Delhi cabinet ministers including jailed leaders Manish Sisodia and Satyendar Jain, Rajya Sabha MPs Sanjay Singh and Raghav Chadha, AAP national general secretary (organisation) Sandeep Pathak, and about 20 senior party leaders from Gujarat.

—ENS

was made to speak to him on a phone through a glass wall.

Accusing the PM of “harassing” and “humiliating” Kejriwal in jail, Singh added, “By putting him under 24-hour CCTV surveillance... your (Modi’s) mind is working 24 hours on how to demoralise Kejriwal, how to humiliate him and his family, his party leaders. But, I want to tell you that Kejriwal is made of sterner stuff... If you make any attempt to break him, Kejriwal ji will become stronger and fight against you.”

Meanwhile, Delhi BJP President Virendra Sachdeva said AAP’s leaders are making fools of Delhi residents and that the CM is not facing any torture.

“People of Delhi have lost sympathy for CM Kejriwal... however, he may try to pretend, people very well know that Delhi’s Tihar jail is under his government and he is neither facing any harassment nor any torture. Jail authorities, bound by the Delhi Prison manual and the direction of the court concerned, are allowing all facilities to the jailed CM...”

Referring to the CM’s latest message from jail, Sachdeva added, “Yes he is not a terrorist but he should have said ‘I am Arvind Kejriwal involved in liquor scam’”

# India’s reliance on oil imports hits fresh full-year high in FY24

SUKALP SHARMA  
NEW DELHI, APRIL 16

INDIA’S RELIANCE ON imported crude to meet its domestic demand hit a fresh all-time high for the full financial year 2023-24 (FY24) due to growing demand for fuel and other petroleum products amid flagging domestic oil production. As per latest data from the oil ministry’s Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), India’s oil import dependency for FY24 climbed to 87.7% from 87.4% in FY23.


Given India’s rapidly rising energy demand, reliance on oil imports has been rising continuously over the past few years, except for FY21, when demand was suppressed due to the Covid pandemic. India’s oil import dependency was 85.5% in FY22, 84.4% in FY21, 85% in FY20, and 83.8% in FY19.

Heavy reliance on imported crude oil makes the Indian economy vulnerable to global oil price volatility, apart from having a bearing on the country’s trade deficit, foreign exchange reserves, rupee’s exchange rate, and inflation.

The government wants to reduce India’s extreme dependence on imported crude oil but sluggish domestic oil output in the face of incessantly growing demand for petro-

## RIISING ENERGY DEMAND

Oil import dependency (in %)



Source: PPAC



leum products has been the biggest roadblock. In fact, in early 2015, the government had set a target to reduce reliance on oil imports to 67% by 2022 from 77% in 2013-14, but the dependency has only grown since. Cutting costly oil imports continues to be a key focus area for the government, and it even found a mention in the BJP’s manifesto for the impending Lok Sabha polls.

Reducing oil imports is also one of the fundamental objectives of the government’s push for electric mobility, biofuels, and other alternative fuels for transportation as well as industries. Over the past few years, the government has also intensified efforts to raise domestic crude

oil output by making exploration and production contracts more lucrative and opening vast acreages for oil and gas exploration. While there has been a pick-up in electric mobility adoption and blending of biofuels with conventional fuels, it is not enough to offset petroleum demand growth.

The computation of the level of import dependence is based on the domestic consumption of petroleum products and excludes petroleum product exports as those volumes do not represent India’s demand. With a refining capacity of little over 250 million tonnes per annum, India—the world’s third-largest consumer of crude oil and also one of its top importers—is a net exporter of petroleum products.

**केनरा बैंक Canara Bank**  
KAKAD MARKET BRANCH : Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. : +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID : cb223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE (SECTION 13(2))**

To,  
• Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, “A” Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.  
• Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Co-Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, “A” Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,  
SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.

That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our Kakad Market Branch from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/ Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	160000346841	Housing Loan	₹ 25,40,000/-	₹ 24,06,932.86	9.45% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more Specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13 (2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 24,06,932.86 (Rs. Twenty Four Lakhs Six Thousand Nine Hundred Thirty Two and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act.

Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**

**ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :-** Residential Flat Bearing Flat No. 202 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in “A” Wing, admeasuring 479.32 Sq. Ft. i. e. 44.53 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As “Royal Garden”, situated at Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- • North : By Bldg. No. 5 of Royal Garden; • South : By Village Wadi; • East : By Bungalow of Suniket Patil; • West : By Ganesh Wadi

Date : 16.04.2024  
Place : Mumbai

Authorized Officer  
Canara Bank

## PM holds roadshow in Guwahati

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Tuesday held a roadshow on the busy Guwahati-Shillong Road, with massive crowds turning up to greet him. The prime minister arrived in Assam in the evening on a two-day visit. He will address an election rally

in Nalbari on Wednesday. The two-km-long roadshow of the prime minister began near Rajiv Bhawan, the state Congress headquarters, and concluded near the state secretariat in Dispur.

—PTI

# NewsClick case: Delhi Police submit sanction orders to prosecute founder under UAPA

NIRBHAY THAKUR  
New Delhi, April 16

THE SPECIAL CELL of Delhi Police Tuesday submitted sanction orders to a Delhi court to prosecute NewsClick founder-editor Prabir Purkayastha under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

Purkayastha and NewsClick HR head Amit Chakraborty were arrested in October last year. They were sent to judicial custody in November. Chakraborty became an approver in the case in January.

The first chargesheet in the case has already been filed, but the court has not yet taken cognizance. The matter will be heard next on April 30.

When a case is lodged under the UAPA, the Centre or the State government has to provide sanction to prosecute an accused after reviewing the evidence provided by the investigating agency—in this case, it is the Delhi Police Special Cell.

An FIR was registered against NewsClick, Purkayastha, US businessman Neville Roy Singham and

Jason Pletcher of Worldwide Media Holdings under UAPA Sections 13 (unlawful activities); 16 (terrorist act); 17 (raising funds for terrorist acts); 18 (conspiracy); 22 (C) (offences by companies, trusts); along with IPC Sections 153A (promoting enmity between different groups) and 120B (criminal conspiracy). The chargesheet, however, has been filed only against NewsClick and Purkayastha.

Earlier, the Delhi Police had alleged that NewsClick received illegal funding from China, routed through the United States. The FIR also mentioned

Purkayastha’s “friendship since 1991” with rights activist Gautam Navlakha who is under house arrest in the Elgar Parishad-Maoist link case.

Among allegations detailed by the Special Cell in its FIR against Purkayastha were attempts to show Kashmir and Arunachal Pradesh as “not parts of India”, discrediting the Indian government’s fight against Covid, funding the farmers’ agitation, and “putting up a spirited defence of legal cases” against Chi-

nese telecom companies such as Xiaomi and Vivo.

Purkayastha and Chakraborty were arrested following day-long searches at over 50 locations linked to the news portal, its employees and contributors. After the searches, which were carried out across the National Capital Region and Mumbai, police said a total of 46 “suspects” had been questioned and their “digital devices” seized. Police also sealed the news portal’s office in Delhi.

In its remand application, the Special Cell stated there were “secret inputs” that “foreign funds in crores have been funneled illegally in India by Indian and foreign entities inimical to India in pursuance of conspiracy with the intention to disrupt sovereignty and territorial integrity of India, to cause disaffection against India and to threaten the unity, integrity, security of India”.

The remand application also stated that an analysis of 4.27 lakh emails showed that the accused were “in direct touch with each other” and were “discussing how to create a new map of India without Kashmir and to show Arunachal Pradesh as disputed area” and to this end, they had received “more than Rs 1.15 crore” in the “guise of foreign funds”.

## ADDENDUM CUM CORRIGENDUM

THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 8882864121 • Email: info@evergreenventures.in  
• Website: www.markobenzventures.com • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

## OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH (“RIGHTS EQUITY SHARES”) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE “ISSUE PRICE”), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE “ISSUE”). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED “TERMS OF THE ISSUE” ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSURES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and scheduled to close at Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the issue closing date; resultant change in the indicative time table of post issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	www.markobenzventures.com
Registrar to the Issue	www.purvashare.com
BSE Limited	www.bseindia.com

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer. E-mail: info@evergreenventures.in   Website: www.markobenzventures.com Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai – 400011, Telephone: +91 22 2301 0771 Email: support@purvashare.com   Website: https://www.purvashare.com/   SEBI Registration: INR000001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSBs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled “Terms of the Issue” beginning on page 86 of this Final Letter Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaialal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

**केनरा बैंक Canara Bank**  
KAKAD MARKET BRANCH : Post Box No. 2615, Kakad Market, 306, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002, Maharashtra • Tel. No. : +91 22-2201 6888 / 2206 5333 • E-mail ID : cb223@canarabank.com

**DEMAND NOTICE (SECTION 13(2))**

To,  
• Mr. Manzoor Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, “A” Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.  
• Mr. Mehruz Mehboob Khan, S/o. Mehboob Sharbat Khan (Co-Borrower)  
• Add.: Flat No. 202 & 203, On 2<sup>nd</sup> Floor, “A” Wing, Royal Garden, Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar-401 404.

Dear Sir,  
SUB: Demand Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002.

That Mr. Manzoor Mehboob Khan & Mr. Mehruz Mehboob Khan has availed the following loans / credit facilities from our Kakad Market Branch from time to time :-

No.	Loan No	Nature of Loan/ Limit	Loan Amt.	Liability as on 20.03.2024	Rate of Int.
1	164001531406	Housing Loan	₹ 17,70,000/-	₹ 16,77,929.86	9.95% + 2%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of Mortgage of the assets more Specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms & conditions stipulated, the bank has classified the debt as NPA on 19.03.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13 (2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of ₹ 16,77,929.86 (Rs. Sixteen Lakhs Seventy Seven Thousand Nine Hundred Twenty Nine and Eighty Six Paise Only) with accrued and up to date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act.

Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch Record.

**SCHEDULE**  
The specific details of the assets Mortgaged / Hypothecated are enumerated hereunder :-

**Particulars of Mortgaged Asset**

**ALL THAT PART & PARCEL OF PROPERTY BEARING DETAILS :-** Residential Flat Bearing Flat No. 202 on the 2<sup>nd</sup> Floor, in “A” Wing, admeasuring 344.88 Sq. Ft. i. e. 32.04 Sq. Mtr. Carpet Area, in Building No. 02 as per the sanctioned plan and Building No. 06 as per the Number given by the Promoter of the Project Known As “Royal Garden”, situated at Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar. The said Building is constructed on the Land bearing Survey No. 43/2, 43/3 of revenue Village : Kurgaon, Taluka & Dist. Palghar within the limit of Sub Registrar, Palghar bounded as follows :- • North : By Bldg. No. 5 of Royal Garden; • South : By Village Wadi; • East : By Bungalow of Suniket Patil; • West : By Ganesh Wadi

Date : 16.04.2024  
Place : Mumbai

Authorized Officer  
Canara Bank

## India’s envoy criticises Cong; party demands dismissal

DIVYA A  
New Delhi, April 16

IN REMARKS TARGETED at the Congress, India’s Ambassador to Ireland, Akhilesh Mishra, on Monday blamed “a single dynastic party” for “the deeply entrenched ecosystem of corruption” in the country, while praising Prime Minister Narendra Modi for his “impeccable personal character and integrity”. His remarks prompted an angry reaction from the Congress, which called for his sacking.

Mishra made the remarks in a rejoinder to an editorial in The Irish Times last week, headlined “...Modi tightens his grip”, which said that “India’s democratic credentials have been severely tarnished” by a “widespread crackdown on free speech and Opposition parties, with hundreds of politically targeted corruption and tax cases filed against Opposition MPs and leaders”.

“Most recent was the arrest of Arvind Kejriwal... over an alleged ‘scam’ involving alcohol sales... And Congress, India’s largest Opposition party, has seen the tax authority freeze millions in its bank accounts, crippling its ability to campaign,” the editorial said.

In his rejoinder, with the headline “Modi enjoys unprecedented popularity”, Mishra said: “Prime Minister Narendra Modi enjoys unprecedented



Akhilesh Mishra, Indian Ambassador to Ireland

popularity not only in India but globally because of his impeccable personal character and integrity and thought-leadership on innovative, inclusive governance and sustainable development.”

“As he does not belong to any elite political family, his personal life inspires millions of ordinary people in India and other developing countries,” Mishra said. “The fight against the deeply entrenched ecosystem of corruption (created by the 55-year rule, including first 30 years by a single dynastic party in India) is a major factor behind Mr Modi’s ever growing popularity,” he said.

“There is a huge sense of relief at the grassroot level to witness action being taken and recoveries made from the rich and powerful elites who operated with a sense of entitlement of impunity,” he said.

## Amitabh Bachchan to receive Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar

MEGASTAR AMITABH BACHCHAN will be honoured with the Lata Deenanath Mangeshkar award, the Mangeshkar family announced on Tuesday.

The family and the trust instituted the award in the memory of Lata Mangeshkar, who died on February 6, 2022, following multiple organ failure.

Bachchan, 81, will receive the recognition on April 24, the memorial day of their father and theatre-music veteran Deenanath Mangeshkar.

This award, known as the Lata Deenanath Mangeshkar Puraskar, is given every year to an individual who has made a path-breaking contribution towards the nation, its people and society.

Music maestro A R Rahman will receive the Master Deenanath Mangeshkar Puraskar for contribution to Indian music, said a press release issued by the Mangeshkar family. —PTI

PROPELLED BY ITS FACTORIES

# China's Q1 growth beats expectations

KEITH BRADSHER & ALEXANDRA STEVENSON  
April 16

**THE CHINESE ECONOMY** grew more than expected in the first three months of the year, new data shows, as China built more factories and exported huge amounts of goods to counter a severe real estate crisis and sluggish spending at home.

To stimulate growth, China, the world's second-largest economy, turned to a familiar tactic: investing heavily in its manufacturing sector, including a binge of new factories that have helped to propel sales around the world of solar panels, electric cars and other products.

But China's bet on exports has worried many foreign countries and companies. They fear that a flood of Chinese shipments to distant markets may undermine their manufacturing industries and lead to layoffs.

On Tuesday, China's National Bureau of Statistics said the economy grew 1.6% in the first quarter over the previous three months. When projected out for the entire year, the first-quarter data indicates that China's economy was growing at an annual rate of about 6.6%.

"The national economy made a good start," said Sheng Lajun, deputy director of the statistics bureau, while cautioning that "the foundation for stable and

sound economic growth is not solid yet."

Retail sales increased at a modest pace of 4.7% compared with the first three months of last year, and were particularly weak in March.

China needs robust consumer spending to bring down persistently high youth unemployment and to help companies and households cope with very high levels of debt.

For the year, China has set a growth target of about 5%, a goal that many economists had viewed as ambitious, although some have recently upgraded their forecasts.

— NYT

# EU aims to propose new sanctions on Iran

NATALIA DROZDIK, ALBERTO NARDELLI & DONATO PAOLO MANCINI  
April 16

**THE EUROPEAN UNION** aims to propose fresh sanctions on Iran over its strike on Israel as early as next week when the bloc's top diplomats meet to discuss the limited options they have for constraining both nations' activity.

The EU is exploring how to expand sanctions it has already imposed on Iran for supplying Russia with unmanned aerial vehicles being used against Ukraine to include missiles and drones that Tehran has provided its proxies in West Asia, said diplomats in the know.

Several member states have also urged including components used in the weapons, said the diplomats, who spoke on condition of anonymity.

The bloc has been struggling to wield influence over the conflict in West Asia, while even the US has been unable to enforce its calls for restraint by Israel, a close ally.

While the topic of sanctions may come up when EU leaders meet this week, the measures will be discussed in more detail by the bloc's foreign ministers on Tuesday afternoon during a hastily convened video-conference.

— BLOOMBERG

# IMF lifts global growth forecast, but flags risks

ERIC MARTIN  
April 16

**THE INTERNATIONAL MONETARY** Fund (IMF) inched up its expectations for global economic growth this year, citing strength in the US and some emerging markets, while warning the outlook remains cautious amid persistent inflation and geopolitical risks.

Global economic activity will expand 3.2% this year, it said Tuesday in its World Economic Outlook, up 0.1 percentage point from its January estimate. The forecast for 2025 was unchanged at 3.2%.

Bloomberg Economics pegs this year's global expansion at 2.9% and next year at 3.1%.

Despite the upgrade, the IMF warned high borrowing costs and the withdrawal of fiscal support are weighing on short-term growth, while the medium-term outlook remains the weakest in decades due to low productivity and global trade tensions. "Numerous challenges remain, and decisive actions are needed," IMF chief economist Pierre-Olivier Gourinchas wrote in a note online accompanying the outlook, flagging stubborn inflation and growing global inequality.

The outlook paints a picture of a world economy that avoided the worst stagnation dangers coming out of the pandemic, but with stunted potential in the coming years. The inflation fight for central banks is headed in the right direction, although it's too early to declare victory by easing monetary policy. And risks to growth abound, particularly from wars in Ukraine and the Middle East.

**PC Jeweller Limited**  
Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972  
E-mail: info@pcjeweller.com, Website: www.pcjeweller.com  
CIN: L36911DL2005PLC134929

**INFORMATION REGARDING THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Friday, May 10, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the earlier Circulars issued in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business specified in the EGM Notice.

Pursuant to MCA Circulars, EGM Notice will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with Depository Participants ("DP") / Company / Registrar & Transfer Agent ("RTA") - KFin Technologies Limited ("KFinTech"). EGM Notice will also be available on the Company's website <https://www.pcjeweller.com> websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>. Physical copy of EGM Notice will be sent to those Members who request for the same.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in EGM Notice either during remote e-voting period or at the EGM. If your e-mail address is registered with the DP / Company / RTA, the login details for e-voting will be sent on your registered e-mail address. Please note that the same login details are required for participating in the EGM through VC / OAVM and vote on the resolution at the EGM. Members holding shares in physical form or Members whose e-mail address is not registered, may refer to the procedure outlined in EGM Notice, to cast their vote during remote e-voting period or at the EGM. Detailed "Instructions for attending the EGM, remote e-voting and e-voting at the EGM" are provided in the EGM Notice.

Members, who have not yet registered their e-mail address and updated bank account details, are requested to do the same by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail address and update bank account details with their respective DP; and
- Members holding shares in physical form can register their e-mail address and update bank account details in the prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA - KFinTech. Members may download the Form from the Company's website and are requested to forward the duly filled in Form along with necessary supporting documents to KFinTech.

For PC Jeweller Limited  
Sd/-  
(VIJAY PANWAR)  
Company Secretary

Place: Delhi  
Date: April 16, 2024

**PRAJ INDUSTRIES LIMITED**

CIN :L27101PN1985PLC038031  
Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2,  
Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune - 411 057.  
Email: investorsfeedback@praj.net / Website : www.praj.net  
Ph. No. +91 020 71802000

Innovate • Integrate • Deliver

**NOTICE of Postal Ballot & Information Regarding E-voting**

Dear Members,

Notice is hereby given that Praj Industries Limited (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31<sup>st</sup> March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remote e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. Further, Board has appointed Mr. Vikas Khare (Membership No.: 3541, COP: 2107), failing him, Mr. Sunil Nanal (Membership No.: 5977, COP: 2809), Partners, KANJ & CO. LLP, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process through electronic means in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated **Wednesday, 10<sup>th</sup> April, 2024** ("Notice"), has been sent by the Company on **Tuesday, 16<sup>th</sup> April, 2024**, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL and Central Depository Services (India) Limited (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, 12<sup>th</sup> April, 2024** ("Cut-Off date").

The communication of assent/dissent of the members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purpose only. The Notice is also available on the website of the Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The remote e-voting period commences from **09.00 a.m. (IST) on Friday, 19<sup>th</sup> April, 2024** and ends at **05.00 p.m. (IST) on Saturday, 18<sup>th</sup> May, 2024**. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is **128344**. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 022-4886 7000 or contact Ms. Prajakta Pawle at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of two working days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), the stock exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

By Order of the Board of Directors  
For Praj Industries Limited  
Sd/-  
**Anant Bavare**  
Company Secretary & Compliance Officer  
(M. No. 21405)

Place : Pune  
Date : 17.04.2024

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
4/1, Sir Muttiahara Road, August Kranti Marg,  
Hauz Khas, New Delhi-110016  
Warehousing for Everyone

Start Date: 16/04/2024 End Date: 15/05/2024

**Advertisement No CWC/I-GM (G)/Deputation/2024/02**

Central Warehousing Corporation, a Schedule-A, Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, providing scientific storage facilities for agricultural inputs, produce and other notified commodities besides providing logistics infrastructure like CFSs/ICDs, Land Custom Stations, Air Cargo Complexes etc. for import-export cargo, invites application from eligible candidates for the following post:

Post Code	Name of the Post	No. of Vacancies	Mode of Appointment
01	General Manager (General)	01	Deputation

Please visit CWC's Website ([www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in)) for detailed information on eligibility criteria including qualification and experience, selection process, terms and conditions and the mode of application.

**VSF PROJECTS LIMITED**  
(CIN: L05005AP1992PLC014326)

Registered Office: Sy.No.782 to 1238, Ankulapur Village, Chillakur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412,  
Website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com) Email: [vsfprojects01@gmail.com](mailto:vsfprojects01@gmail.com)  
Contact Number: + 040 - 23548694

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
**FOR KIND ATTENTION OF PHYSICAL SHAREHOLDERS**

This Public announcement is being given by VSF Projects Limited ("the Company") to inform the Physical Shareholders of the Company, that the Board of Directors of the Company has approved a Rights Issue of upto Rs. 4,95,00,000 Lakhs to all the existing shareholders of the Company and in this regard an application for obtaining in principle approval for the proposed Rights Issue has been made to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PO-D-2/P/CI/R/2023/00094 dated June 21, 2023, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only and Investors will not have the option of getting the allotment of Equity Shares in physical form.

**PLEASE NOTE THAT SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT DEMATTED THEIR SHARES WILL BE DEPRIVED FROM EXERCISING THEIR RIGHTS ENTITLEMENT OR CREDIT OF SHARES IN DEMATERIALIZED FORM.**

Accordingly, we request all the shareholders holding shares in Physical form to get their shares dematerialised at the earliest but not later than 21 days from the date of this announcement to ensure credit of Rights Entitlement in the demat account.

For more details on Rights Issue refer to Chapter titled "Terms of Issue" on page 152 of the Draft Letter of Offer available on the following websites:  
(a) Our Company - [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com); and  
(b) The Stock Exchange - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For any assistance in this regard, the Shareholders can contact our RTA, Aarhi Consultants Private Limited 1-2-285, Domalguda Hyderabad - 500029, email: [info@aarhiconsultants.com](mailto:info@aarhiconsultants.com), Tel: 040-27638111 or visit our website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com)

For VSF Projects Limited  
Sd/-  
**B N Murthy**  
Managing Director  
(DIN: 00073068)

Place: Hyderabad  
Date :16-04-2024

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**

THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 8882864121. • Email: [info@evergentextiles.in](mailto:info@evergentextiles.in).  
• Website: [www.markobenzventures.com](http://www.markobenzventures.com) • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIYALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**

**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSURES ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close on Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF for the modification in the Issue closing date; resultant change in the indicative time table of post-issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	<a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a>
Registrar to the Issue	<a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a>
BSE Limited	<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: <a href="mailto:info@evergentextiles.in">info@evergentextiles.in</a>   Website: <a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a> . Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Panel (E), Mumbai - 400011, Telephone: +91 22 2301 0771 Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a>   Website: <a href="https://www.purvashare.com">https://www.purvashare.com</a>   SEBI Registration: INR000001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSBs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaiyalal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.**

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

**CIN: U29219CH1994PLC015132**

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,40,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,40,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [-] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-]. ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [-] AND HINDI EDITIONS OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [-] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

- Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Ovn Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>		<b>600,000</b>	<b>111.00</b>				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of the Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

- Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.
- The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.
- The size of the Fresh Issue of up to 10,50,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.
- The size of the Offer of up to 14,00,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,40,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchanges.

**All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.**

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the website of the Book Running Lead Manager at [www.atsl.co.in](http://www.atsl.co.in). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Surgent Comm.

VSF PROJECTS LIMITED (CIN: L05005AP1992PLC014326) Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapur Village, Chilkur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412. Website: www.vsfproject.com email: vsfprojects1991@gmail.com PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR KIND ATTENTION OF PHYSICAL SHAREHOLDERS

Canara Bank (A Group of India Overseas) DEMAND NOTICE Branch: Badshahpur Opp. SBI, Main Gurgaon Sohna Road, VPO badshahpur, Gurgaon, Haryana 122001

Bank of Baroda Operations Department Parliament Street Branch 011/23448934 Email: PARLIA@bankofbaroda.com Notices to Lockers Holders- Bank of Baroda Defaulters in Payment of Rent of Lockers

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MAHAVIR INDUSTRIES LIMITED

SBI STATE BANK OF INDIA RACPC FARIDABAD, NEELAM CHOWK, FIRST FLOOR, NIT, FARIDABAD, HARYANA-121001 NOTICE FOR E-AUCTION SALE ON 21.05.2024 FOR MOVABLE PROPERTY

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. MARKOBENZ VENTURES LIMITED

"IMPORTANT" Whose care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

DATE / TIME OF E-AUCTION ON 21.05.2024 FOR 5 HOURS FROM 11:00 AM TO 04:00 PM WITH UNLIMITED EXTN. OF 10 MINUTE EACH

PRAJ INDUSTRIES LIMITED CIN :L27101PN1985PLC038031 Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi , Pune - 411 057.

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (SARB-II) KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521) 3rd & 4th Floor, State Bank House, 18/4 Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 Tel.011-28752163 Fax. 28755674

NOTICE OF Postal Ballot & Information Regarding E-voting Dear Members, Notice is hereby given that Praj Industries Limited(the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31st March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remote e-voting").

## कश्मीर : झेलम में नाव पलटी, छह की मौत

श्रीनगर, 16 अप्रैल (भाषा)।

श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में मंगलवार को झेलम नदी में एक नाव के पलट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नाव में ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गंदबल नौगांव इलाके में सुबह करीब आठ बजे हुई और छह लोगों की नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण झेलम नदी के साथ ही झीलें एवं जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। अभी यह स्तर नहीं हो सका कि नाव में कितने लोग सवार थे। श्रीनगर के उपायुक्त बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों के शव बरामद किए गए हैं। भट्ट ने संवाददाताओं को बताया ' इस दुर्घटना में दुर्भाग्य से छह लोगों की मौत हो गई। हमने छह अन्य लोगों को बचा लिया है और उनमें से तीन का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है।

बाकी तीन लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह 7:45 से आठ बजे के बीच घटी थी। 'हम यह पता लगा रहे हैं कि नाव में कितने लोग सवार थे। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नाव में सात नावालीगों सहित 15 लोगों सवार थे।' भट्ट से पूछा गया कि क्या प्रशासन ने घाटी में विभिन्न नदियों और जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि होने के बाद लोगों को चेतावनी दी थी?

## जसस्ता क्लासीफाइड

**PUBLIC NOTICE**  
In General, I am hereby informed that my client Sh. Ashok Kumar Sehgal S/O Late Sh. Sardar Lal Sehgal and his wife Smt. Manja Sehgal both residents of 32/10, 3rd Floor, West Patel Nagar New Delhi-110028, have severed all their relations and connection with their daughter Ms. Nidhi Sehgal (a divorcee) who is presently living at 32/10, 3rd Floor, West Patel Nagar, New Delhi - 110028. I have disowned, disbarred her from inhering all their moveable and immovable properties and assets, as she has proved to be most disreputable and disobedient and also harassing, treating and emotionally blackmailing my clients to transfer their residence in her name. My client shall from now onwards not be responsible for any her deeds/misdeeds, actions.

**Advocate**  
Shefali Vohra

**पुस्तक निर्यात सेवा**  
सर्वकाल शास्त्र: गांधियाबाद, केजे-13 कवि नगर गांधियाबाद 201001, ईमेल: cs8228@pnb.co.in

**शुद्धिपत्र**  
आम जनता को एतद्वाचा सूचित किया जाता है कि ई-नौलामी सूचना अर्थात् अचल संपत्तियों की विक्री के लिए 15.04.2024 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। जिसमें लॉट नं. 1, 2, 3, 4, 6, और 7 में इंफर्मी राशि गलत प्रकाशित हुआ है इनके जगह पर लॉट नं. 1, 2, 3, 4, 6, और 7 में इंफर्मी राशि लॉट नं. 1 में रु. 2.18 लाख, लॉट नं. 2 में रु. 10.20 लाख, लॉट नं. 3 में रु. 6.80 लाख, लॉट नं. 4 में रु. 1.30 लाख, लॉट नं. 6 में रु. 2.04 लाख और लॉट नं. 7 में रु. 3.60 लाख है और लॉट नं. 3 में आरक्षित मूल्य रु. 72.00 लाख प्रकाशित हुआ है जो कि नारा है इसके जगह आरक्षित मूल्य रु. 68.00 लाख पड़े। बाकि नियम व शर्तें समान्य रहेगी।

प्राधिकृत अधिकारी  
दिनांक: 16.04.2024 पंजाब नेशनल बैंक

**इ-निविदा (इ-अपटेंडमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण**  
सं. 128-W/280/इ- निविदा सूचना/16/2024-25/W-3 दिनांक: 15.04.2024  
निम्नलिखित कार्य को विजे विरक्त मंडल अभियंता/II, उत्तर देवरे, दिल्ली मंडल में इ-निविदा आमंत्रण।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आवृत्ति	दिनांक
1	कार्य 1: सहायक मंडल अभियंता/दिल्ली के तहत वरिष्ठ अनुसंधान अभियंता/पी.ओ. का नाम शह्यारचरी के अनुसंधान में ट्रेड का वार्षिक संचालन और रखरखाव।		03.05.2024 को 15:00 तक।
2	कार्य 2: कार्य की अनुमानित लागत (रुपये)	Rs. 98,89,479.44/- (अनुमानित लागत नवारी हजार चार सौ उनहत्तर रुपये और धरावीस पैसे मात्र)	
3	व्ययाना राशि (रुपये)	Rs. 1,97,800/- (एक लाख सत्तानवे हजार आठ सौ रुपये)	
4	निविदा प्रश्न का मूल्य (रुपये)	रु. 0.00	
5	निविदा बोली प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय		
6	वेबसाइट विवरण जहां निविदा दर्सावेजी का पूरा विवरण देखा जा सकता है।		

• केकेदास को ई-टेंडर प्रणाली में नाम लेने के लिए भारतीय रेलवे ई-प्रोक्वोरमेंट सिस्टम (IREPS) साइट पर नाम [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। • सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दर्सावेज देखें। • मैन्युअल निविदाएं स्वीकृत नहीं की जाएंगी। • निविदा दर्सावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे के माध्यम से देवी करी होगी।

आह्वान की शर्तों में सुधारक के नाम

**कांचन बैंक** Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)

**ई-नौलामी विक्री सूचना**

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम, आईटी पार्क, ब्लॉक नं. 38 सहस्रधारा रोड देहरादून

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसितियों के विक्रय हेतु ई-नौलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से कर्ण(ी/यों)/जमानकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरी/प्रधारित है, का मौखिक/सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, वहाँ है और जो कुछ भी है" के आधार पर नियम 13 (2) के अन्तर्गत मॉग सूचना वर्णित बकया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	लॉकर धारक का नाम	शाखा का नाम	लॉकर संख्या	अतिदेय राशि	दिनांक अंतिम नोटिस	ब्रेक ओपन तिथि
1.	सीमासिंह	संसद मार्ग	0586AX0661 (पुराना नं.- 291)	14,897/-	24/11/2023	03/05/2024
2.	अमित जे मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0687 (पुराना नं.- 314)	14,732/-	24/11/2023	03/05/2024
3.	अमित जय मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0698 (पुराना नं.- 324)	10,619/-	24/11/2023	03/05/2024
4.	भल्लादेवप्रसाद इंदु	संसद मार्ग	0586FX0019 (पुराना नं.- 898)	50,813/-	24/11/2023	03/05/2024
5.	निताबनबाबाला	संसद मार्ग	0586AX1389 (पुराना नं.- 636)	13,478/-	24/11/2023	03/05/2024
6.	सुखदेव मोहन कोहली	संसद मार्ग	0586AX1340 (पुराना नं.- 951)	11,070/-	24/11/2023	03/05/2024
7.	सुनिताकुमार	संसद मार्ग	0586AX1051 (पुराना नं.- 867)	12,808/-	24/11/2023	03/05/2024

दिनांक: 15.04.2024, स्थान: नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.**



# INDO FARM EQUIPMENT LIMITED

CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" wide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

## OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111,000 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND HINDI EDITION OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

## NOTICE TO INVESTORS

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

- a) Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Own Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>		<b>600,000</b>	<b>111.00</b>				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

- b) Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.
- c) The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer Paid-Up Equity Share capital of our Company.
- d) The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.
- e) The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchanges.

All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

**For Indo Farm Equipment Limited**  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED** is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the website of the Book Running Lead Manager at [www.afsl.co.in](http://www.afsl.co.in). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

**यूएफबी बैंक** Bank of Baroda

शाखा: परियाल विमान संघर्ष मार्ग राधा 011/23448934 ईमेल: PARLIA@bankofbaroda.com

लॉकर धारकों को नोटिस - लॉकर के किरपूर के भुगतान में बैंक ऑफ बड़ौदा के बकाएदार

यह हमारे मूल्यवान संस्कारों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक की नीचे उल्लिखित शाखाओं में लॉकर किरपूर पर लिए हैं और समझौते का उल्लंघन किया है। आरबीआई/बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किरपूरधारकों को उनके दर्ज पते पर नोटिस भेजा गया। लॉकर धारकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने और उनके दर्ज पते पर संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए और उनके वर्तमान ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार कोई विकल्प न होने पर, नीचे दिए गए सभी व्यक्ति(ओं) को नीचे उल्लिखित शाखाओं से संपर्क करने और 02/05/2024 तक बैंक का बकया चुकाने के लिए यह नोटिस दिया जा रहा है, ऐसा न करने पर बैंक उनके लॉकर को उनके लागत, जोखिम और जिम्मेदारियों पर तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा और बैंक बकया किरपूर, ब्रेक ओपन की लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए अपने प्रशासिक अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	लॉकर धारक का नाम	शाखा का नाम	लॉकर संख्या	अतिदेय राशि	दिनांक अंतिम नोटिस	ब्रेक ओपन तिथि
1.	सीमासिंह	संसद मार्ग	0586AX0661 (पुराना नं.- 291)	14,897/-	24/11/2023	03/05/2024
2.	अमित जे मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0687 (पुराना नं.- 314)	14,732/-	24/11/2023	03/05/2024
3.	अमित जय मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0698 (पुराना नं.- 324)	10,619/-	24/11/2023	03/05/2024
4.	भल्लादेवप्रसाद इंदु	संसद मार्ग	0586FX0019 (पुराना नं.- 898)	50,813/-	24/11/2023	03/05/2024
5.	निताबनबाबाला	संसद मार्ग	0586AX1389 (पुराना नं.- 636)	13,478/-	24/11/2023	03/05/2024
6.	सुखदेव मोहन कोहली	संसद मार्ग	0586AX1340 (पुराना नं.- 951)	11,070/-	24/11/2023	03/05/2024
7.	सुनिताकुमार	संसद मार्ग	0586AX1051 (पुराना नं.- 867)	12,808/-	24/11/2023	03/05/2024

दिनांक: 15.04.2024, स्थान: नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

**केनरा बैंक** Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)

**ई-नौलामी विक्री सूचना**

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम, आईटी पार्क, ब्लॉक नं. 38 सहस्रधारा रोड देहरादून

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसितियों के विक्रय हेतु ई-नौलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से कर्ण(ी/यों)/जमानकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरी/प्रधारित है, का मौखिक/सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, वहाँ है और जो कुछ भी है" के आधार पर नियम 13 (2) के अन्तर्गत मॉग सूचना वर्णित बकया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	लॉकर धारक का नाम	शाखा का नाम	लॉकर संख्या	अतिदेय राशि	दिनांक अंतिम नोटिस	ब्रेक ओपन तिथि
1.	सीमासिंह	संसद मार्ग	0586AX0661 (पुराना नं.- 291)	14,897/-	24/11/2023	03/05/2024
2.	अमित जे मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0687 (पुराना नं.- 314)	14,732/-	24/11/2023	03/05/2024
3.	अमित जय मल्ला	संसद मार्ग	0586AX0698 (पुराना नं.- 324)	10,619/-	24/11/2023	03/05/2024
4.	भल्लादेवप्रसाद इंदु	संसद मार्ग	0586FX0019 (पुराना नं.- 898)	50,813/-	24/11/2023	03/05/2024
5.	निताबनबाबाला	संसद मार्ग	0586AX1389 (पुराना नं.- 636)	13,478/-	24/11/2023	03/05/2024
6.	सुखदेव मोहन कोहली	संसद मार्ग	0586AX1340 (पुराना नं.- 951)	11,070/-	24/11/2023	03/05/2024
7.	सुनिताकुमार	संसद मार्ग	0586AX1051 (पुराना नं.- 867)	12,808/-	24/11/2023	03/05/2024

दिनांक: 15.04.2024, स्थान: नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड**  
कार्यालय: चोला ब्रेकर, सी 54 एच 55, सुरभ सी-4, थिंक वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, शाखा पता: एससीओ नंबर 350-351-352, तृतीय तल, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022  
शाखा पता: एससीओ 97, द्वितीय तल, प्रेम नगर, विकास विहार, अम्बाला सिटी, अम्बाला-134003

**कब्जा सूचना-(नियम 8(1) के तहत)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(ए) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थी, जिसमें कर्जदारों, निष्काम नाम कालम (डी) में निर्दिष्ट किए गए हैं, से कालम (ई) में निर्दिष्ट बकया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित तदधीन विरहित नियमवली के नियम 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निर्दिष्ट तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निर्दिष्ट बकया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार विक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्यक्ष आसित चुका सकते हैं।

क्र. सं.	कर्जदार/ए/का नाम एवं पता तथा कब्जा शाखा संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकया राशि	कब्जे में लाने की तिथि का विवरण	कब्जा की तिथि
1.	क्रम शाखा सं. X0HEAML00002193645 कर्जदार एवं सह-कर्जदार :- स्व. श्री जे पाल वीमान के सभी कानूनी वारिस (अज्ञात वारिस) 1. सुनील वीमान (व्यक्ति) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 2. पवन जे पाल वीमान (पुरुष) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 3. जयवीर जे पाल वीमान (पुरुष) मकान नंबर 1782/11 मॉडर्न फर्नीचर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003 4. निधि वीमान (पुत्री) मकान नंबर 1889, प्रेम नगर, कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, पिनकोड - 134003.	19-01-2024	₹ 1,76,29,299/- ₹ 12,00,000/- ₹ 1,64,29,299/-	मकान कुल परिसमा 761 वर्ग गज, लिफ्ट कोर्ट रोड, अम्बाला सिटी, जिसमें 20 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 5197 दिनांकित 20-12-2006, 270 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 4629 दिनांकित 15-11-2006, 154 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 6989 दिनांकित 28-11-88 तथा 317 वर्ग गज सेल डीड वसीका नंबर 15288 दिनांकित 22-02-1991 के अनुसार पंजीकृत है।	15-04-2024

तिथि: 17-04-2024  
स्थान: चंडीगढ़/अम्बाला

प्राधिकृत अधिकारी  
मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

**श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड**  
(पूर्व की श्रीराम सिटी यूनिवर्सिटी फाइनेंस लिमिटेड)  
पंजीकृत कार्यालय: 14ए, श्री टॉवर, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुन्डी, चेन्नई 600 032  
शाखा कार्यालय: 2913-2914, प्रथम तल सेक्टर-22/सी, चंडीगढ़-160022  
वेबसाइट: www.shriramfinance.in

**मॉग सूचना**  
नोट: यह सूचित किया जाता है कि



PROPELLED BY ITS FACTORIES

# China's Q1 growth beats expectations

KEITH BRADSHER & ALEXANDRA STEVENSON  
April 16

THE CHINESE ECONOMY grew more than expected in the first three months of the year, new data shows, as China built more factories and exported huge amounts of goods to counter a severe real estate crisis and sluggish spending at home.

To stimulate growth, China, the world's second-largest economy, turned to a familiar tactic: investing heavily in its manufacturing sector, including a binge of new factories that have helped to propel sales around the world of solar panels, electric cars and other products.

But China's bet on exports has worried many foreign countries and companies. They fear that a flood of Chinese shipments to distant markets may undermine their manufacturing industries and lead to layoffs.

On Tuesday, China's National Bureau of Statistics said the economy grew 1.6% in the first quarter over the previous three months. When projected out for the entire year, the first-quarter data indicates that China's economy was growing at an annual rate of about 6.6%.

"The national economy made a good start," said Sheng Lajun, deputy director of the statistics bureau, while cautioning that "the foundation for stable and

sound economic growth is not solid yet."

Retail sales increased at a modest pace of 4.7% compared with the first three months of last year, and were particularly weak in March.

China needs robust consumer spending to bring down persistently high youth unemployment and to help companies and households cope with very high levels of debt.

For the year, China has set a growth target of about 5%, a goal that many economists had viewed as ambitious, although some have recently upgraded their forecasts.

— NYT

# EU aims to propose new sanctions on Iran

NATALIA DROZDAK, ALBERTO NARDELLI & DONATO PAOLO MANCINI  
April 16

THE EUROPEAN UNION aims to propose fresh sanctions on Iran over its strike on Israel as early as next week when the bloc's top diplomats meet to discuss the limited options they have for constraining both nations' activity.

The EU is exploring how to expand sanctions it has already imposed on Iran for supplying Russia with unmanned aerial vehicles being used against Ukraine to include missiles and drones that Tehran has provided its proxies in West Asia, said diplomats in the know.

Several member states have also urged including components used in the weapons, said the diplomats, who spoke on condition of anonymity.

The bloc has been struggling to wield influence over the conflict in West Asia, while even the US has been unable to enforce its calls for restraint by Israel, a close ally.

While the topic of sanctions may come up when EU leaders meet this week, the measures will be discussed in more detail by the bloc's foreign ministers on Tuesday afternoon during a hastily convened video-conference.

— BLOOMBERG

# IMF lifts global growth forecast, but flags risks

ERIC MARTIN  
April 16

THE INTERNATIONAL MONETARY Fund (IMF) inched up its expectations for global economic growth this year, citing strength in the US and some emerging markets, while warning the outlook remains cautious amid persistent inflation and geopolitical risks.

Global economic activity will expand 3.2% this year, it said Tuesday in its World Economic Outlook, up 0.1 percentage point from its January estimate. The forecast for 2025 was unchanged at 3.2%.

Bloomberg Economics pegs this year's global expansion at 2.9% and next year at 3.1%.

Despite the upgrade, the IMF warned high borrowing costs and the withdrawal of fiscal support are weighing on short-term growth, while the medium-term outlook remains the weakest in decades due to low productivity and global trade tensions. "Numerous challenges remain, and decisive actions are needed," IMF chief economist Pierre-Olivier Gourinchas wrote in a note online accompanying the outlook, flagging stubborn inflation and growing global inequality.

The outlook paints a picture of a world economy that avoided the worst stagnation dangers coming out of the pandemic, but with stunted potential in the coming years. The inflation fight for central banks is headed in the right direction, although it's too early to declare victory by easing monetary policy. And risks to growth abound, particularly from wars in Ukraine and the Middle East.

**Global economic activity will expand 3.2% this year**

**PC Jeweller Limited**  
Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972  
E-mail: info@pcjeweller.com, Website: www.pcjeweller.com  
CIN: L36911DL2005PLC134929

**INFORMATION REGARDING THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Friday, May 10, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the earlier Circulars issued in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business specified in the EGM Notice.

Pursuant to MCA Circulars, EGM Notice will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with Depository Participants ("DP") / Company / Registrar & Transfer Agent ("RTA") - KFin Technologies Limited ("KFinTech"). EGM Notice will also be available on the Company's website <https://www.pcjeweller.com> and <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>. Physical copy of EGM Notice will be sent to those Members who request for the same.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in EGM Notice either during remote e-voting period or at the EGM. If your e-mail address is registered with the DP / Company / RTA, the login details for e-voting will be sent on your registered e-mail address. Please note that the same login details are required for participating in the EGM through VC / OAVM and vote on the resolution at the EGM. Members holding shares in physical form or Members whose e-mail address is not registered, may refer to the procedure outlined in EGM Notice, to cast their vote during remote e-voting period or at the EGM. Detailed "Instructions for attending the EGM, remote e-voting and e-voting at the EGM" are provided in the EGM Notice.

Members, who have not yet registered their e-mail address and updated bank account details, are requested to do the same by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail address and update bank account details with their respective DP; and
- Members holding shares in physical form can register their e-mail address and update bank account details in the prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA - KFinTech. Members may download the Form from the Company's website and are requested to forward the duly filled in Form along with necessary supporting documents to KFinTech.

For PC Jeweller Limited  
Sd/-  
(VIJAY PANWAR)  
Company Secretary

Place: Delhi  
Date: April 16, 2024

**PRAJ INDUSTRIES LIMITED**  
CIN :L27101PN1985PLC038031  
Regd. off.: "PRAJ TOWER", S. No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune - 411 057.  
Email: investorsfeedback@praj.net / Website : www.praj.net  
Ph. No. +91 020 71802000

**NOTICE of Postal Ballot & Information Regarding E-voting**

Dear Members,

Notice is hereby given that Praj Industries Limited (the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), notified by MCA and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, is seeking approval of its members by way of Special Resolutions for appointment of Mr. Vinayak Deshpande (DIN: 00036827) and Mr. Utkarsh Palnitkar (DIN: 00170004) as Non-Executive Directors, not liable to retire by rotation and Independent Directors of the Company, for a period of Three (3) years with effect from 31<sup>st</sup> March, 2024, by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting/remote e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. Further, Board has appointed Mr. Vikas Khare (Membership No.: 3541, COP: 2107), failing him, Mr. Sunil Nanal (Membership No.: 5977, COP: 2809), Partners, KANJ & CO. LLP, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process through electronic means in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Wednesday, 10<sup>th</sup> April, 2024 ("Notice"), has been sent by the Company on Tuesday, the 16<sup>th</sup> April, 2024, only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL and Central Depository Services (India) Limited (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, 12<sup>th</sup> April, 2024 ("Cut-Off date").

The communication of assent/dissent of the members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purpose only. The Notice is also available on the website of the Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Friday, 19<sup>th</sup> April, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Saturday, 18<sup>th</sup> May, 2024. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is 128344. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 022-4886 7000 or contact Ms. Prajakta Pawle at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of two working days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at [www.praj.net](http://www.praj.net), the stock exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

By Order of the Board of Directors  
For Praj Industries Limited  
Sd/-  
Anant Bavare  
Company Secretary & Compliance Officer  
(M. No. 21405)

Place : Pune  
Date : 17.04.2024

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
4/1, Sri Institute Road, August Kranti Marg, Hous Kohli, New Delhi-110016  
Warehousing for Everyone

Start Date: 16/04/2024 End Date: 15/05/2024

Advertisement No CWC/I-GM (G)/Deputation/2024/02

Central Warehousing Corporation, a Schedule-A, Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, providing scientific storage facilities for agricultural inputs, produce and other notified commodities besides providing logistics infrastructure like CFS/ICDs, Land Custom Stations, Air Cargo Complexes etc. for import-export cargo, invites application from eligible candidates for the following post:

Post Code	Name of the Post	No. of Vacancies	Mode of Appointment
01	General Manager (General)	01	Deputation

Please visit CWC's Website ([www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in)) for detailed information on eligibility criteria including qualification and experience, selection process, terms and conditions and the mode of application.

**VSF PROJECTS LIMITED**  
(CIN: L05005AP1992PLC014326)  
Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapur Village, Chillakur Mandal, Tirupati District, Andhra Pradesh, 524 412.  
Website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com) Email: [vsfprojects01@gmail.com](mailto:vsfprojects01@gmail.com)  
Contact Number: + 040 - 23548694

**PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR KIND ATTENTION OF PHYSICAL SHAREHOLDERS**

This Public announcement is being given by VSF Projects Limited ("the Company") to inform the Physical Shareholders of the Company, that the Board of Directors of the Company has approved a Rights Issue of upto Rs. 4,95,00,00,00,00,000 Lakhs to all the existing shareholders of the Company and in this regard an application for obtaining in principle approval for the proposed Rights Issue has been made to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/00094 dated June 21, 2023, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only and Investors will not have the option of getting the allotment of Equity Shares in physical form.

PLEASE NOTE THAT SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT DEMATTED THEIR SHARES WILL BE DEPRIVED FROM EXERCISING THEIR RIGHTS ENTITLEMENT OR CREDIT OF SHARES IN DEMATERIALIZED FORM.

Accordingly, we request all the shareholders holding shares in Physical form to get their shares dematerialised at the earliest but not later than 21 days from the date of this announcement to ensure credit of Rights Entitlement in the demat account.

For more details on Rights Issue refer to Chapter titled "Terms of Issue" on page 152 of the Draft Letter of Offer available on the following websites:

(a) Our Company - [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com); and  
(b) The Stock Exchange - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For any assistance in this regard, the Shareholders can contact our RTA, Aarhi Consultants Private Limited 1-2-285, Domalguda Hyderabad - 500029, email: [info@aarhiconsultants.com](mailto:info@aarhiconsultants.com), Tel: 040-27638111 or visit our website: [www.vsfproject.com](http://www.vsfproject.com)

**For VSF Projects Limited**  
Sd/-  
B N Murthy  
Managing Director (DIN: 00073068)

Place: Hyderabad  
Date :16-04-2024

**ADDENDUM CUM CORRIGENDUM**  
THIS IS A CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR AN OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

**MARKOBENZ VENTURES LIMITED**  
Registered Office: Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalsal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.  
• Mobile No: +91 8882864121. • Email: [info@evergentextiles.in](mailto:info@evergentextiles.in).  
• Website: [www.markobenzventures.com](http://www.markobenzventures.com) • Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer.  
• Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652

**OUR PROMOTERS : CHIRAG KANAIYALAL SHAH, AND NIRUPAMA KHANDKE**  
**NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MARKOBENZ VENTURES LIMITED**

ISSUE OF UPTO 1,44,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 /- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 0/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 1440.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THREE (3) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ONE (1) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MARCH 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 85 OF THE LETTER OF OFFER.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED	OLD DATE	NEW DATE
ISSUE CLOSING ON	Monday, April 22, 2024	Tuesday, 30 April 2024

This is to inform eligible shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue of the Equity Shares of the Company, which opened on Monday 15<sup>th</sup> April, 2024 and schedules to close on Monday 22<sup>nd</sup> April, 2024 now be extended till Tuesday, 30<sup>th</sup> April 2024, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 30 April 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Tuesday, 30 April 2024. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF except for the modification in the Issue closing date; resultant change in the indicative time table of post-issue activities on account of the extension of the issue closing date and to the extent stated in this notice.

Access Of Documents On The Website Of	URL of websites
Company	<a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a>
Registrar to the Issue	<a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a>
BSE Limited	<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>

COMPANY DETAILS	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>MARKOBENZ VENTURES LIMITED</b> Office No. 144, 14th Floor, Atlanta Building, Plot No 209, Jammalsal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Person: Pankaj Tulsyani, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: <a href="mailto:info@evergentextiles.in">info@evergentextiles.in</a>   Website: <a href="http://www.markobenzventures.com">www.markobenzventures.com</a> Corporate Identification Number: L46692MH1985PLC037652	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Panel (E), Mumbai - 400011, Telephone: +91 22 2301 0771 Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a>   Website: <a href="https://www.purvashare.com/">https://www.purvashare.com/</a> SEBI Registration: INR00001112   Validity: Permanent Contact Person: Deepali Dhuri

Investors may contact Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue / post-issue related matters such as non-receipt of letters of allotment / share certificates / refund orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs for grievances related to ASBA, giving full details such as name, address of the applicant, e-mail id of the first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA account number and the Designated Branch of the SCSBs where the plain paper application was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue" beginning on page 86 of this Final Letter of Offer.

On Behalf of Board of Directors  
For Markobenz Ventures Limited  
Sd/-  
Chirag Kanaiyallal Shah  
Managing Director

Place : Mumbai  
Date : 16<sup>th</sup> April 2024

**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.**

**INDO FARM EQUIPMENT LIMITED**  
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY  
CIN: U29219CH1994PLC015132

Our Company was originally incorporated as "Welcut Tools Private Limited" on October 05, 1994 at Chandigarh as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Welcut Industries Private Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on January 11, 1995 and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the change of name was granted to our Company on February 21, 1995, by the Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on June 29, 1999 and the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated July 05, 1999 was issued by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Further, the name of our Company was changed to "Indo Farm Tractors & Motors Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 28, 2003 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on October 30, 2003 by Registrar of Companies, Punjab, H.P. & Chandigarh. Thereafter, the name of our Company was changed to "Indo Farm Industries Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated December 03, 2007 and a fresh Certificate of Incorporation was issued dated December 18, 2007 by Assistant Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Indo Farm Equipment Limited" vide special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting dated October 24, 2009 and a fresh Certificate of Incorporation was issued on November 04, 2009 by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. For further details, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 162 of the Draft Red Herring Prospectus.

**OUR PROMOTERS: RANBIR SINGH KHADWALIA AND SUNITA SAINI**

**INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 13,400,000\* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDO FARM EQUIPMENT LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,500,000 EQUITY SHARES BY RANBIR SINGH KHADWALIA ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 27.89%\* OF THE FULLY DILUTED POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

\* OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 600,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 185 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 175 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 111.00 MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") HAS BEEN REDUCED BY 600,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO 9,900,000\* EQUITY SHARES AND THE SIZE OF THE OFFER IS UP TO 13,400,000 EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•]. ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND HINDI EDITIONS OF THE REGIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHANDIGARH, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

**NOTICE TO INVESTORS**

With reference to the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("DRHP") filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

a) Our Company has undertaken a private placement of 600,000 Equity Shares at an issue price of ₹185/- per Equity Share (including a share premium of ₹175/- per Equity Share) aggregating to ₹111.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on March 16, 2024 and by our Shareholders at their extra ordinary general meeting held on March 19, 2024. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares Allotted	Details of the Allottees*			Face Value (₹)	Issue Price (₹)	Nature of Consideration	Reason for allotment	
		Sr. No.	Name	No. of Equity Shares					Amount (₹ in Millions)
April 16, 2024	600,000	1	Hathor Corporate Advisors LLP	300,000	55.50	10	185	Cash	Pre-IPO (Private Placement)
		2	Own Infracon Pvt. Ltd.	150,000	27.75				
		3	Garishma Daga	150,000	27.75				
		<b>Total</b>		<b>600,000</b>	<b>111.00</b>				

\* The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiary, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the Directors and KMPs of the Subsidiary Company and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

b) Pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement, our paid-up Equity Share capital has increased from ₹375.52 million to ₹381.52 million.

c) The size of the Pre-IPO placement of up to 1,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each ("Equity Shares") as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Pre-IPO placement is up to 1,300,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Further Pre-IPO Placement (if any) is undertaken, the number of Equity Shares issued pursuant to the Pre-IPO Placement will be further reduced from the Fresh Issue, subject to the minimum Offer Size constituting at least 25% of the Post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company.

d) The size of the Fresh Issue of up to 10,500,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the above-mentioned Pre-IPO Placement and the revised size of the Fresh Issue is up to 9,900,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each.

e) The size of the Offer of up to 14,000,000 Equity Shares as disclosed in the DRHP has been reduced by 600,000 Equity Shares pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised size of the Offer Size is up to 13,400,000 Equity Shares of Face Value of ₹10 each. Now the Offer will constitute 27.89% of the fully diluted post offer paid-up equity share capital of our Company.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchanges.

**All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.**

For Indo Farm Equipment Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Navpreet Kaur  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: April 16, 2024  
Place: Chandigarh

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and the website of the Book Running Lead Manager at [www.atsl.co.in](http://www.atsl.co.in). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States only to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act). The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Source: Company